

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Pratapgarh-I****Challan No. : 25/394**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	2481	4.44	67.83	12.59	0.3792
2	2433	7.32	61.01	12.39	0.5534
3	2497	4.04	60.51	12.71	0.3107
4	2498	3.93	63.54	10.64	0.2657
5	2435	3.8	58.43	13.18	0.2926
6	2410	4.24	60.62	12.29	0.3159
7	2406	3.96	53.66	14.50	0.3081
8	2454	4.26	55.48	14.31	0.3382
9	2453	4.45	58.21	13.85	0.3587
10	2434	4.04	59.88	13.71	0.3317
11	2425	3.59	52.87	13.41	0.2545
12	2479	4.28	58.05	13.68	0.3398
13	2416	3.34	43.57	14.41	0.2098
14	2445	4.9	54.61	10.91	0.2920
15	2470	3.64	57.44	12.92	0.2701
16	2495	7.02	61.21	12.32	0.5293
17	2403	3.46	39.73	14.42	0.1983
18	2427	3.43	63.38	11.09	0.2411
19	2438	7.73	57.72	13.12	0.5852
20	2415	3.57	55.98	13.42	0.2681
21	2499	3.57	65.64	13.22	0.3099
22	2496	3.97	67.27	12.75	0.3406
23	2404	4.39	59.02	13.49	0.3494
24	2457	4.56	53.58	12.97	0.3169
25	2409	7.34	60.83	10.67	0.4764
26	2439	3.56	63.21	11.36	0.2556
27	2429	4.11	59.82	12.50	0.3074
28	2422	3.51	55.50	11.71	0.2282
29	2494	4.23	65.16	12.72	0.3507
30	2474	3.63	64.51	10.32	0.2418
31	2462	7.08	53.34	14.96	0.5650
32	2475	4.34	58.82	14.21	0.3628
33	2447	4.47	61.21	12.01	0.3285
34	2444	3.6	56.19	13.56	0.2743
35	2428	3.52	46.34	13.96	0.2277
36	2450	4.29	59.54	14.23	0.3634
37	2431	3.22	52.23	13.19	0.2219
38	2446	7.43	60.78	13.94	0.6293
39	2467	4.18	54.47	11.82	0.2692
40	2430	3.71	41.94	13.76	0.2141
41	2491	6.96	61.32	14.47	0.6174
42	2459	4.28	55.87	13.94	0.3334

43	2408	4.18	55.03	12.45	0.2863
44	2420	3.31	52.44	13.94	0.2420
45	2414	3.57	59.26	11.98	0.2535
46	2490	4.44	65.98	13.56	0.3974
47	2442	7.44	65.91	13.72	0.6726
48	2478	7.62	56.95	14.49	0.6287
49	2489	4.36	61.47	12.49	0.3348
50	2493	3.69	67.58	12.70	0.3166
51	2405	3.52	52.79	14.62	0.2717
52	2440	4.04	52.41	15.04	0.3184
53	2473	3.77	57.88	16.14	0.3521
54	2407	4.24	48.95	14.69	0.3049
55	2448	3.7	60.26	14.24	0.3175
56	2486	4.51	61.11	13.91	0.3834
57	2482	7.2	63.07	12.62	0.5731
58	2480	7.49	61.78	10.91	0.5048
59	2412	6.99	60.86	11.90	0.5061
60	2458	4.34	60.44	13.30	0.3489
61	2463	4.17	51.85	14.56	0.3148
62	2402	4.27	59.93	14.03	0.3591
63	2485	3.44	48.89	13.64	0.2294
64	2461	7.27	57.05	14.34	0.5947
65	2484	6.73	45.18	14.83	0.4509
66	2487	3.82	64.72	13.46	0.3327
67	2452	4.13	65.76	13.58	0.3688
68	2466	3.57	54.20	13.75	0.2660
69	2441	3.79	62.07	12.86	0.3024
70	2471	6.49	61.12	14.14	0.5607
71	2421	4.29	42.84	12.39	0.2278
72	2426	3.6	54.44	13.15	0.2578
73	2436	3.52	59.32	12.09	0.2524
74	2492	3.75	57.65	10.27	0.2220
75	2464	4.05	56.74	12.50	0.2871
76	2456	4.4	62.52	13.50	0.3714
77	2423	3.64	51.54	13.70	0.2570
78	2419	3.36	46.53	13.45	0.2103
79	2500	4.12	63.13	13.26	0.3448
80	2401	4.25	56.13	13.61	0.3247
81	2472	8.43	57.86	10.89	0.5311
82	2449	8.29	59.58	13.28	0.6557
83	2483	7.92	67.17	12.45	0.6621
84	2477	4.14	60.40	13.13	0.3283
85	2437	4.14	58.12	13.99	0.3366
86	2443	7.37	60.05	12.66	0.5601
87	2451	4.32	62.43	13.74	0.3707
88	2455	4.26	58.54	12.18	0.3037
89	2468	4.17	53.07	14.57	0.3223

90	2469	8.32	49.94	14.86	0.6173
91	2411	4.27	58.82	13.40	0.3365
92	2417	3.53	45.74	14.67	0.2369
93	2488	7.58	59.43	12.42	0.5594
94	2418	3.46	45.15	15.48	0.2419
95	2424	3.62	58.00	11.95	0.2509
96	2465	7.91	52.12	13.70	0.5648
97	2460	4.49	76.28	10.15	0.3475
98	2432	6.4	50.13	14.68	0.4710
99	2413	4.26	60.70	11.75	0.3037
100	2476	7.13	58.40	13.15	0.5476

Name of Division : Pratapgarh-I

Challan No. : 29/425

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	2834	4.4	53.32	15.59	0.3656
2	2811	4.33	62.49	13.38	0.3620
3	2887	4.16	57.91	13.11	0.3157
4	2840	4.22	64.14	13.94	0.3773
5	2869	4.25	60.56	14.42	0.3710
6	2849	4.17	65.55	13.93	0.3807
7	2846	7.1	55.61	12.48	0.4927
8	2835	4.43	55.15	13.47	0.3291
9	2897	4.21	65.41	13.22	0.3642
10	2895	4.31	66.43	13.77	0.3944
11	2826	6.87	60.09	14.53	0.5998
12	2819	7.54	46.94	13.46	0.4765
13	2858	4.51	43.50	12.64	0.2481
14	2898	4.19	62.28	13.33	0.3478
15	2891	4.17	60.46	14.14	0.3565
16	2843	4.27	53.94	12.90	0.2972
17	2807	4.12	61.29	12.82	0.3238
18	2808	3.64	55.93	11.96	0.2435
19	2883	3.88	57.04	14.92	0.3302
20	2848	3.86	60.70	12.47	0.2922
21	2894	4.26	66.63	11.98	0.3399
22	2888	4.56	64.02	13.75	0.4013
23	2896	3.49	68.16	13.29	0.3162
24	2822	7.06	63.48	13.67	0.6128
25	2880	7.49	61.71	13.29	0.6142
26	2900	7.41	66.72	11.14	0.5506
27	2847	7.23	59.06	12.56	0.5365
28	2850	6.79	62.77	13.59	0.5792
29	2876	7.13	58.30	13.04	0.5419
30	2832	4.2	69.03	10.79	0.3129
31	2873	4	51.09	12.43	0.2540
32	2802	3.91	64.38	13.82	0.3480
33	2885	4.25	53.35	14.34	0.3251
34	2866	4.36	51.29	12.40	0.2773
35	2842	4.22	54.00	12.56	0.2861
36	2841	4.36	53.79	15.02	0.3523

37	2817	4.4	63.89	13.10	0.3683
38	2833	3.94	54.88	13.68	0.2959
39	2852	4.17	66.46	15.80	0.4379
40	2886	3.63	58.99	15.83	0.3390
41	2859	4.38	45.76	14.03	0.2812
42	2823	8.55	61.56	12.41	0.6532
43	2867	8.51	50.46	12.72	0.5463
44	2829	7.69	50.25	15.42	0.5960
45	2879	3.77	52.56	14.02	0.2778
46	2870	7.48	52.24	14.51	0.5670
47	2864	7.77	53.58	13.51	0.5625
48	2861	4.48	45.18	12.64	0.2558
49	2830	8.38	49.83	12.20	0.5095
50	2854	8.4	62.79	12.18	0.6426
51	2878	4.13	46.31	15.53	0.2969
52	2837	2.84	54.41	13.64	0.2107
53	2813	6.96	59.42	13.09	0.5415
54	2893	4.31	55.98	15.11	0.3646
55	2865	4.57	45.95	13.91	0.2920
56	2844	4.2	54.18	13.95	0.3175
57	2801	3.8	62.70	12.01	0.2861
58	2856	3.65	54.98	14.68	0.2946
59	2877	4.31	60.31	12.37	0.3215
60	2806	4.03	59.11	12.72	0.3031
61	2824	3.63	63.07	14.98	0.3430
62	2860	4.24	55.42	10.90	0.2561
63	2831	3.64	51.07	15.35	0.2854
64	2839	4.41	53.41	14.02	0.3303
65	2863	4.44	54.00	11.20	0.2686
66	2814	4.68	62.09	13.29	0.3861
67	2809	4.01	65.67	14.24	0.3749
68	2827	4.12	37.66	16.62	0.2579
69	2889	7.04	62.82	14.63	0.6470
70	2851	4.09	54.89	14.14	0.3174
71	2884	4.04	57.40	14.22	0.3297
72	2899	4.25	56.94	14.42	0.3489
73	2821	7.09	53.37	14.45	0.5466
74	2820	4.92	54.99	13.15	0.3557
75	2812	3.53	61.95	11.91	0.2605
76	2874	4.18	55.16	16.95	0.3908
77	2845	4.36	44.76	14.12	0.2756
78	2868	4.49	53.13	14.47	0.3453
79	2818	3.9	41.74	15.09	0.2457
80	2836	4.44	56.98	13.99	0.3539
81	2804	3.65	50.74	12.14	0.2248
82	2810	3.99	62.75	11.94	0.2989
83	2872	4.26	50.67	15.87	0.3425
84	2803	3.47	55.81	12.78	0.2474
85	2828	8.02	52.17	14.53	0.6079
86	2875	4	55.74	12.86	0.2868

87	2881	4.23	54.09	14.90	0.3409
88	2816	4.43	61.24	12.38	0.3358
89	2855	4.51	52.76	14.88	0.3540
90	2815	7.6	60.12	13.99	0.6392
91	2892	7.18	63.74	12.61	0.5773
92	2805	4.1	63.39	12.49	0.3247
93	2890	4.38	62.10	13.67	0.3719
94	2825	4.28	54.64	14.64	0.3424
95	2862	4.26	54.34	10.91	0.2526
96	2882	4.45	61.31	11.91	0.3249
97	2853	4.16	55.67	13.26	0.3070
98	2838	7.27	62.72	12.82	0.5845
99	2857	8.04	48.42	15.90	0.6191
100	2871	7.23	59.69	13.20	0.5697

Name of Division : Pratapgarh-I

Challan No. : 32/428

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	3127	4.13	50.40	14.15	0.2945
2	3106	4.3	59.05	14.67	0.3724
3	3109	4.11	54.64	15.03	0.3374
4	3101	4.46	59.26	13.75	0.3635
5	3199	4.21	51.21	12.97	0.2795
6	3114	3.59	57.28	14.68	0.3019
7	3125	4.51	59.01	13.83	0.3680
8	3115	4.42	56.69	12.81	0.3209
9	3112	3.52	58.61	12.71	0.2622
10	3122	3.46	57.93	14.53	0.2913
11	3180	4.4	51.72	13.40	0.3049
12	3173	4.73	50.40	12.56	0.2994
13	3200	4.28	48.25	14.72	0.3039
14	3196	3.62	56.76	12.49	0.2567
15	3181	7.05	48.38	13.10	0.4470
16	3154	3.4	51.10	15.01	0.2608
17	3129	3.29	55.92	15.24	0.2803
18	3168	7.07	61.92	14.71	0.6441
19	3140	7.4	58.48	13.22	0.5720
20	3160	3.4	47.89	14.91	0.2428
21	3142	3.51	59.10	10.30	0.2138
22	3189	3.76	58.26	13.20	0.2891
23	3137	3.55	56.10	10.21	0.2034
24	3177	3.67	60.53	13.56	0.3013
25	3161	4.46	59.15	12.34	0.3256
26	3150	4.27	54.99	11.69	0.2746
27	3148	7.37	57.44	13.68	0.5793
28	3165	3.46	60.90	12.58	0.2650
29	3149	4.37	59.08	10.61	0.2740
30	3157	4.11	60.39	12.50	0.3103
31	3156	4.29	65.55	13.56	0.3814
32	3117	3.56	53.74	13.81	0.2642
33	3116	3.49	52.58	14.17	0.2600

34	3153	4.06	58.08	15.20	0.3585
35	3103	3.68	51.42	15.62	0.2955
36	3176	8.55	42.29	15.30	0.5532
37	3131	3.44	47.96	12.72	0.2098
38	3186	3.91	43.55	15.82	0.2694
39	3191	4.21	44.58	15.50	0.2909
40	3155	3.49	55.70	10.92	0.2122
41	3130	3.17	45.85	14.31	0.2080
42	3175	3.95	48.70	14.37	0.2765
43	3172	3.99	43.29	14.14	0.2442
44	3126	4.6	51.02	14.37	0.3372
45	3166	3.98	59.34	14.95	0.3530
46	3169	4.47	61.62	13.11	0.3612
47	3104	4.42	63.03	12.25	0.3412
48	3107	4.33	62.71	12.88	0.3499
49	3108	8.63	48.72	12.07	0.5074
50	3170	3.21	55.08	13.91	0.2459
51	3158	3.69	56.19	14.56	0.3018
52	3135	7.44	59.17	11.36	0.5000
53	3121	3.23	56.99	14.67	0.2700
54	3124	4.21	60.09	12.12	0.3065
55	3118	4.21	61.30	13.31	0.3435
56	3182	3.76	56.28	13.59	0.2876
57	3102	7.68	56.58	12.04	0.5230
58	3185	7.26	59.36	13.01	0.5605
59	3193	4.53	53.94	13.83	0.3379
60	3143	6.6	61.81	14.54	0.5933
61	3138	3.07	47.66	15.57	0.2278
62	3136	4.12	55.77	14.34	0.3296
63	3152	2.76	45.98	10.40	0.1319
64	3188	3.47	57.55	14.51	0.2897
65	3179	4.25	46.33	14.25	0.2805
66	3194	3.5	43.69	17.60	0.2691
67	3144	3.97	55.27	13.73	0.3013
68	3190	3.62	54.67	15.13	0.2994
69	3113	4.08	51.18	12.17	0.2542
70	3120	3.99	56.44	12.58	0.2833
71	3184	3.51	51.45	15.24	0.2752
72	3128	3.61	50.38	14.47	0.2632
73	3147	4.47	54.53	12.89	0.3142
74	3119	3.84	48.67	10.81	0.2020
75	3171	3.6	56.60	12.79	0.2606
76	3111	4.44	56.94	12.70	0.3210
77	3110	4.69	53.26	11.28	0.2819
78	3164	3.56	60.73	9.88	0.2136
79	3141	6.35	61.80	13.69	0.5372
80	3183	3.45	51.00	14.22	0.2501
81	3105	4.54	62.75	14.92	0.4249
82	3187	3.69	53.17	14.65	0.2875
83	3151	4.09	54.67	14.54	0.3252

84	3132	3.54	62.75	14.09	0.3129
85	3174	4.03	54.44	11.43	0.2507
86	3159	3.24	41.77	15.61	0.2112
87	3145	4.14	53.93	12.53	0.2799
88	3146	4.2	49.78	14.02	0.2932
89	3163	3.45	61.02	13.85	0.2915
90	3192	3.79	50.51	14.75	0.2824
91	3139	4.1	50.81	13.74	0.2862
92	3133	2.21	52.11	15.85	0.1825
93	3178	4.38	52.37	13.94	0.3197
94	3162	4.53	63.29	14.73	0.4222
95	3134	3.92	64.57	13.12	0.3320
96	3197	8.89	61.77	13.95	0.7663
97	3123	7.75	58.31	13.48	0.6091
98	3198	3.84	69.50	3.28	0.0876
99	3167	4.07	56.51	12.55	0.2886
100	3195	3.39	65.55	11.05	0.2454

Date: 14.08.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Pratapgarh-I****Challan No. : 19/287**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	1805	3.98	58.46	13.98	0.3252
2	1827	3.48	53.54	12.68	0.2363
3	1855	7.32	66.53	12.42	0.6046
4	1814	4.14	50.07	13.42	0.2782
5	1822	7.67	40.75	16.88	0.5277
6	1849	3.41	43.59	16.91	0.2513
7	1831	3.25	45.73	15.13	0.2249
8	1881	7.63	47.53	14.64	0.5310
9	1810	4.4	50.02	15.83	0.3485
10	1826	3.67	46.19	15.15	0.2569
11	1806	7.13	52.44	15.12	0.5654
12	1892	7.33	52.27	13.58	0.5204
13	1890	4.06	48.74	12.45	0.2464
14	1867	4.68	46.40	12.56	0.2728
15	1899	3.79	53.00	13.94	0.2801
16	1834	3.57	50.15	13.68	0.2449
17	1884	4.32	54.01	13.31	0.3106
18	1816	7.2	59.45	14.21	0.6084
19	1808	4.07	59.23	13.68	0.3297
20	1869	3.78	52.79	12.92	0.2578
21	1862	7.52	62.27	12.94	0.6061
22	1847	8.9	62.70	12.73	0.7102
23	1835	8.41	55.68	13.34	0.6249
24	1854	3.63	66.19	12.40	0.2980
25	1888	4.35	64.01	12.89	0.3589
26	1856	3.67	65.34	12.98	0.3112
27	1803	4.25	57.78	12.29	0.3017
28	1886	7.11	52.71	14.49	0.5432
29	1833	7.01	54.54	13.40	0.5124
30	1870	4.56	59.95	12.21	0.3338
31	1804	4.34	56.56	12.52	0.3073
32	1823	3.71	46.36	16.29	0.2801
33	1873	4.99	51.72	13.30	0.3433
34	1830	4.01	47.58	14.88	0.2839
35	1836	3.62	52.67	13.92	0.2653
36	1852	4.32	66.21	13.14	0.3758
37	1885	7.67	60.88	12.57	0.5868
38	1880	7.49	56.09	13.51	0.5677
39	1875	4.56	51.24	13.29	0.3105
40	1864	4.27	47.92	14.75	0.3019
41	1813	7.23	59.78	13.52	0.5842
42	1829	4.33	56.31	13.82	0.3369

43	1819	7.22	60.78	13.54	0.5942
44	1865	3.94	46.06	14.26	0.2589
45	1868	8.87	56.37	12.86	0.6431
46	1897	4.42	60.08	12.90	0.3426
47	1860	3.95	56.80	14.30	0.3207
48	1809	7.07	57.71	13.71	0.5592
49	1887	7.36	57.61	13.92	0.5903
50	1853	8.96	62.74	13.50	0.7589
51	1895	4.32	52.66	13.79	0.3136
52	1840	7.52	57.90	13.58	0.5911
53	1861	4.05	54.16	13.40	0.2940
54	1900	3.56	56.51	13.24	0.2663
55	1851	4.34	58.99	14.09	0.3607
56	1815	4.39	62.84	12.27	0.3385
57	1820	4.35	56.59	14.01	0.3450
58	1871	3.74	52.44	11.31	0.2218
59	1857	7.58	55.26	13.57	0.5685
60	1812	7.13	58.77	13.14	0.5504
61	1859	7.49	56.28	14.23	0.5999
62	1879	8.69	61.98	13.91	0.7491
63	1824	8.88	45.79	15.55	0.6323
64	1896	7.67	62.83	12.70	0.6121
65	1817	4.19	60.24	14.51	0.3662
66	1825	4.49	55.40	14.77	0.3673
67	1807	7.21	55.39	13.61	0.5436
68	1893	7.68	60.56	12.42	0.5775
69	1844	3.54	49.82	15.25	0.2690
70	1878	7.34	59.10	13.27	0.5755
71	1863	7.29	61.50	12.83	0.5752
72	1846	4.5	57.77	12.69	0.3299
73	1866	7.4	51.21	13.55	0.5136
74	1845	7.52	56.85	14.21	0.6076
75	1837	8.75	64.83	13.31	0.7551
76	1850	4.49	60.11	14.11	0.3808
77	1801	4.21	60.16	12.77	0.3233
78	1842	7.33	58.44	13.64	0.5842
79	1872	7.51	57.74	13.16	0.5708
80	1882	8.73	61.64	12.30	0.6617
81	1891	3.98	58.25	12.07	0.2798
82	1848	3.64	64.04	12.29	0.2865
83	1832	4.16	57.59	11.53	0.2762
84	1894	4.24	64.84	13.65	0.3752
85	1843	4.39	63.69	12.48	0.3490
86	1811	4.52	58.30	13.36	0.3521
87	1889	4.49	61.37	12.89	0.3552
88	1839	4.15	61.57	14.46	0.3693
89	1841	4.31	64.10	12.04	0.3327

90	1802	8.62	61.19	11.78	0.6215
91	1821	3.89	48.46	11.49	0.2167
92	1858	4.33	59.82	12.70	0.3291
93	1877	3.92	49.46	13.20	0.2560
94	1876	7.37	58.43	11.57	0.4982
95	1898	7.32	70.30	10.98	0.5651
96	1818	4.26	59.91	13.87	0.3540
97	1883	7.77	62.41	12.51	0.6068
98	1874	4.01	55.61	14.19	0.3164
99	1828	7.17	55.25	13.36	0.5291
100	1838	6.72	53.06	12.63	0.4502

Name of Division : Pratapgarh-I

Challan No. : 23/332

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	2224	4.4	46.11	15.51	0.3146
2	2209	7.38	56.14	16.16	0.6694
3	2298	4.19	43.33	16.34	0.2967
4	2234	4.05	49.77	16.60	0.3345
5	2227	7	50.97	15.87	0.5663
6	2220	3.4	44.62	15.19	0.2305
7	2250	4.38	57.74	12.00	0.3035
8	2282	7.64	57.21	12.46	0.5447
9	2284	7.55	59.77	13.42	0.6055
10	2246	4.55	56.11	15.13	0.3863
11	2285	7.4	57.37	15.18	0.6445
12	2300	6.73	50.66	14.92	0.5088
13	2225	7.16	50.50	13.56	0.4905
14	2263	4.28	68.15	13.09	0.3818
15	2212	7.29	59.34	14.16	0.6124
16	2293	4.33	51.14	14.74	0.3265
17	2296	7.22	52.87	15.68	0.5985
18	2255	4.36	59.12	14.11	0.3636
19	2239	4.96	59.78	14.82	0.4395
20	2262	7.47	65.44	12.65	0.6185
21	2252	8.16	64.47	12.86	0.6765
22	2242	7.55	59.88	14.71	0.6652
23	2228	7.09	53.10	13.97	0.5261
24	2276	7.52	57.13	10.92	0.4692
25	2295	7.4	57.50	14.37	0.6112
26	2207	4.17	50.41	14.54	0.3057
27	2233	6.8	56.38	13.68	0.5243
28	2253	7.48	66.72	12.51	0.6246
29	2219	3.87	58.01	13.79	0.3096
30	2241	7.55	61.16	12.98	0.5995
31	2299	4.58	60.75	12.59	0.3504
32	2254	4.61	62.84	14.02	0.4061
33	2235	4.32	58.30	14.32	0.3607
34	2226	3.89	53.79	13.94	0.2918
35	2291	8.94	70.04	12.59	0.7885
36	2260	9.2	69.57	12.06	0.7719

37	2208	8.72	50.73	14.80	0.6549
38	2206	9.25	56.53	13.66	0.7141
39	2259	9.07	69.91	12.73	0.8072
40	2223	8.63	57.85	13.74	0.6861
41	2205	4.23	55.09	14.67	0.3418
42	2231	3.39	47.61	12.33	0.1990
43	2218	3.86	54.88	13.72	0.2907
44	2215	4.52	57.83	15.04	0.3932
45	2289	4.26	55.62	15.28	0.3621
46	2283	4.55	58.99	11.70	0.3140
47	2251	4.61	64.55	12.49	0.3716
48	2243	4.53	62.26	12.27	0.3461
49	2273	4.3	64.35	13.69	0.3788
50	2256	7.64	66.93	12.85	0.6570
51	2279	4.23	59.22	15.30	0.3832
52	2281	4.33	53.62	15.01	0.3486
53	2210	7.46	57.89	14.41	0.6222
54	2216	4.15	60.18	14.19	0.3544
55	2222	6.76	55.38	14.48	0.5422
56	2247	7.71	66.21	13.03	0.6654
57	2288	7.46	68.51	13.15	0.6721
58	2271	7.13	59.18	13.25	0.5590
59	2269	6.89	51.38	14.67	0.5195
60	2286	4.63	67.45	12.31	0.3843
61	2203	4.22	52.58	15.46	0.3431
62	2287	4.74	59.27	11.96	0.3361
63	2258	9.09	66.22	12.11	0.7290
64	2261	9.08	65.85	11.97	0.7155
65	2280	4.24	57.10	13.82	0.3345
66	2268	3.41	52.47	16.28	0.2912
67	2264	7.59	75.34	12.38	0.7081
68	2236	4.09	52.73	13.12	0.2830
69	2267	3.49	51.56	13.98	0.2516
70	2229	7.35	57.04	14.55	0.6101
71	2245	4.73	62.53	12.84	0.3798
72	2204	4.61	54.79	13.20	0.3333
73	2249	4.16	59.74	13.48	0.3349
74	2238	7.66	56.35	14.45	0.6235
75	2274	4.65	58.44	12.46	0.3385
76	2240	4.64	62.98	12.16	0.3554
77	2202	4.02	47.48	16.18	0.3087
78	2213	4.33	61.32	12.18	0.3235
79	2278	7.29	56.11	14.77	0.6043
80	2265	4.7	70.65	13.69	0.4545
81	2214	7.67	65.79	13.06	0.6589
82	2270	6.77	61.07	12.76	0.5274
83	2297	4.35	50.69	15.90	0.3506
84	2266	6.68	50.86	13.98	0.4749
85	2257	4.45	65.30	11.30	0.3284
86	2290	7.64	69.13	13.24	0.6991

87	2232	6.95	58.49	12.10	0.4921
88	2294	4.29	57.12	12.66	0.3102
89	2244	7.55	64.72	11.45	0.5595
90	2230	2.98	61.49	13.17	0.2414
91	2237	4.24	60.49	13.89	0.3562
92	2248	7.72	66.66	12.02	0.6184
93	2211	7.5	60.72	14.28	0.6503
94	2221	3.59	59.85	10.38	0.2229
95	2277	4.59	58.09	13.41	0.3576
96	2217	4.27	43.94	13.18	0.2472
97	2292	7.54	62.38	12.71	0.5979
98	2272	4.62	61.57	14.54	0.4135
99	2201	3.51	43.30	14.06	0.2138
100	2275	9.17	61.14	13.22	0.7409

Date: 12.08.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Pratapgarh-I****Challan No. : 30/426**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	2981	3.39	67.70	13.40	0.3075
2	2995	3.37	59.75	13.51	0.2720
3	2982	4.41	61.94	12.77	0.3488
4	2906	3.1	49.73	15.68	0.2418
5	2932	7.65	59.47	14.58	0.6633
6	2940	4.26	45.77	14.73	0.2871
7	2922	7.15	57.58	12.50	0.5148
8	2944	4.33	46.94	15.91	0.3235
9	2915	4.35	58.32	13.17	0.3341
10	2931	7.32	61.42	13.37	0.6010
11	2972	3.23	55.81	14.03	0.2529
12	2979	3.68	45.47	13.66	0.2285
13	2957	3.84	46.65	13.35	0.2392
14	2962	3.52	51.87	13.55	0.2475
15	2928	4.7	55.47	12.20	0.3182
16	2918	4.34	56.10	13.99	0.3407
17	2923	4	54.32	13.75	0.2988
18	2910	4.17	55.38	12.86	0.2969
19	2914	4.29	56.86	14.26	0.3479
20	2926	6.99	60.10	13.04	0.5480
21	2967	3.45	48.80	14.49	0.2439
22	2960	8.68	45.92	13.96	0.5564
23	2933	7.57	57.94	14.26	0.6253
24	2983	4.17	63.24	13.82	0.3645
25	2905	4.34	57.27	12.57	0.3125
26	2952	3.48	58.57	14.58	0.2972
27	2990	4.36	63.20	13.77	0.3793
28	2919	4.25	60.71	13.05	0.3366
29	2924	4.31	61.62	12.63	0.3353
30	2956	3.93	48.84	14.82	0.2845
31	2980	4.32	51.33	14.34	0.3180
32	2949	4.26	57.34	13.86	0.3387
33	2930	4.73	57.36	12.22	0.3316
34	2908	3.28	59.08	12.07	0.2339
35	2966	3.78	53.01	13.77	0.2759
36	2951	4.69	60.96	13.52	0.3865
37	2943	3.53	55.22	13.33	0.2598
38	2959	7.07	56.83	13.64	0.5479
39	2953	3.6	51.38	15.88	0.2938
40	2954	7.3	64.50	14.22	0.6694
41	2937	7.32	49.96	12.89	0.4714
42	2904	4.38	56.76	12.40	0.3084

43	2925	4.11	61.22	13.20	0.3321
44	2973	4.51	58.31	14.56	0.3829
45	2935	3.5	51.01	14.04	0.2506
46	2946	4.51	53.73	16.02	0.3883
47	2964	3.98	54.99	12.78	0.2798
48	2901	7.2	65.37	13.35	0.6286
49	2948	4.59	58.15	15.01	0.4007
50	2916	4.22	59.42	14.34	0.3595
51	2977	3.19	61.91	15.02	0.2967
52	2912	3.58	54.67	13.92	0.2724
53	2971	3.37	52.96	16.65	0.2972
54	2958	4.02	49.94	13.18	0.2645
55	2963	3.33	51.56	13.67	0.2348
56	2965	3.37	42.96	14.94	0.2164
57	2999	4.19	58.50	13.47	0.3302
58	2968	4.05	47.30	16.74	0.3208
59	2909	4.3	49.43	14.57	0.3096
60	2994	3.3	52.25	13.72	0.2366
61	2917	3.5	56.91	14.65	0.2919
62	2986	7.29	57.63	13.73	0.5766
63	2976	3.98	54.06	14.96	0.3220
64	2955	3.47	49.61	16.11	0.2773
65	2950	3.76	49.39	15.61	0.2899
66	2970	3.79	50.61	14.15	0.2714
67	2997	3.58	52.28	14.17	0.2653
68	2978	4.36	54.46	14.29	0.3392
69	2941	3.55	48.06	16.15	0.2755
70	2996	3.55	62.48	12.66	0.2808
71	2942	7.14	46.98	15.09	0.5062
72	2992	4.37	48.67	13.44	0.2858
73	2929	4.67	54.97	14.39	0.3694
74	2974	4.07	63.30	12.23	0.3150
75	2991	4.56	48.30	13.98	0.3078
76	2902	4.39	62.21	14.23	0.3885
77	2938	3.88	51.39	16.72	0.3333
78	2913	3.74	54.08	12.96	0.2622
79	2936	4.54	46.96	15.55	0.3314
80	2920	4.14	54.04	15.67	0.3507
81	2927	7.25	62.38	14.88	0.6728
82	2988	4.16	58.15	12.30	0.2974
83	3000	3.34	53.83	13.86	0.2492
84	2945	3.72	56.83	14.66	0.3099
85	2984	3.7	59.96	13.79	0.3060
86	2911	4.15	43.42	15.41	0.2776
87	2939	3.6	60.29	15.38	0.3337
88	2975	7.82	48.92	15.45	0.5912
89	2985	4.51	53.83	13.80	0.3351

90	2987	4.3	61.61	14.12	0.3741
91	2961	7.07	54.18	14.53	0.5564
92	2989	3.3	57.08	15.05	0.2835
93	2947	4.93	54.16	14.73	0.3934
94	2998	3.29	51.61	13.10	0.2224
95	2993	7.48	56.94	13.03	0.5550
96	2921	4.28	56.52	14.93	0.3612
97	2934	4.19	68.53	14.59	0.4190
98	2969	3.23	61.25	12.69	0.2510
99	2903	4.32	60.89	14.53	0.3823
100	2907	4.05	60.55	14.98	0.3673

Date: 10.08.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Pratapgarh-I****Challan No. : 01/13**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	76	8.72	61.87	13.21	0.7124
2	78	9.1	59.96	13.38	0.7298
3	34	7.73	58.96	12.14	0.5535
4	69	6.44	57.80	12.46	0.4637
5	83	8.18	50.89	12.58	0.5235
6	27	8.64	52.32	14.32	0.6471
7	97	8.38	60.57	12.89	0.6545
8	94	7.66	62.98	14.00	0.6756
9	64	7.34	57.46	15.77	0.6650
10	95	7.5	59.38	13.07	0.5820
11	62	7.4	61.66	14.81	0.6756
12	81	7.37	54.92	15.19	0.6147
13	50	8.55	56.14	14.20	0.6814
14	56	8.69	61.11	15.19	0.8064
15	63	9.1	59.42	13.55	0.7326
16	58	4.41	64.36	14.17	0.4022
17	39	4.59	64.70	13.79	0.4094
18	17	4.51	59.26	12.72	0.3401
19	21	4.47	57.05	12.46	0.3178
20	7	3.79	63.34	14.79	0.3551
21	55	4.17	51.51	13.49	0.2898
22	18	4.27	52.00	13.85	0.3074
23	68	4.51	54.41	13.53	0.3319
24	67	4.58	60.14	12.85	0.3540
25	10	4.28	55.78	12.62	0.3013
26	16	4.56	59.49	13.90	0.3771
27	52	4.33	60.72	12.98	0.3412
28	2	3.95	56.34	13.67	0.3042
29	46	4.5	61.30	13.18	0.3636
30	70	8.51	51.65	15.26	0.6706
31	44	4.54	57.96	14.20	0.3736
32	53	4.45	56.56	13.33	0.3355
33	37	4.23	59.80	13.83	0.3498
34	40	4.5	54.26	15.43	0.3766
35	29	4.37	56.66	15.02	0.3719
36	87	7.43	61.69	15.21	0.6969
37	100	6.84	40.86	17.45	0.4877
38	85	6.84	63.15	14.70	0.6348
39	59	7.49	61.57	13.76	0.6344
40	86	7.16	67.83	11.88	0.5771
41	82	6.97	61.01	12.70	0.5402
42	98	7.3	59.01	13.83	0.5957

43	33	7.41	56.32	14.08	0.5876
44	79	7.27	55.89	13.46	0.5467
45	38	6.98	56.26	14.17	0.5563
46	66	9.12	58.64	12.76	0.6822
47	90	8.74	63.70	13.97	0.7779
48	42	7.67	60.21	14.07	0.6496
49	91	8.74	61.10	13.70	0.7315
50	75	7.13	56.14	11.99	0.4798
51	25	7.28	55.21	12.64	0.5081
52	84	7.24	62.59	14.35	0.6502
53	43	9.46	56.97	12.99	0.7000
54	93	8.77	58.75	12.63	0.6507
55	13	7.32	56.91	14.09	0.5871
56	41	8.84	59.12	13.36	0.6984
57	80	8.46	53.60	14.16	0.6421
58	88	8.36	62.06	14.28	0.7407
59	28	7.67	52.11	13.15	0.5254
60	35	7.35	56.64	14.76	0.6145
61	73	7.09	59.78	13.48	0.5715
62	57	7.57	62.45	13.96	0.6601
63	12	7.67	59.18	11.19	0.5078
64	8	7.42	53.80	12.62	0.5038
65	71	8.85	49.35	14.91	0.6514
66	48	4.63	59.69	12.98	0.3588
67	4	7.09	43.29	14.53	0.4460
68	6	3.02	57.27	14.07	0.2434
69	3	3.68	49.50	15.13	0.2756
70	32	5.12	57.99	12.38	0.3676
71	22	7.1	56.14	13.16	0.5247
72	31	4.38	52.49	13.22	0.3040
73	5	4.05	54.56	14.02	0.3098
74	15	4.12	58.20	12.32	0.2954
75	60	4.64	61.16	12.79	0.3628
76	61	4.28	60.31	13.73	0.3544
77	1	3.76	51.10	13.97	0.2685
78	36	4.37	58.53	14.78	0.3780
79	49	4.34	59.72	13.75	0.3563
80	99	3.29	53.75	15.26	0.2698
81	20	9.14	58.79	13.95	0.7495
82	89	7.22	62.65	13.57	0.6137
83	14	7.12	56.00	13.46	0.5368
84	19	7.05	61.62	13.18	0.5725
85	45	9.11	55.00	15.31	0.7671
86	92	7.6	60.62	14.76	0.6802
87	96	8.83	63.10	14.79	0.8238
88	72	8.89	49.66	16.15	0.7130
89	11	7.7	62.36	13.73	0.6591

90	9	7.97	51.65	13.28	0.5467
91	51	7.58	57.82	12.94	0.5670
92	24	7.45	59.03	13.74	0.6042
93	54	7.46	59.42	13.11	0.5811
94	74	7.05	57.31	12.09	0.4886
95	77	8.14	56.59	15.48	0.7131
96	26	7.49	49.10	13.75	0.5056
97	30	7.09	50.10	14.95	0.5310
98	65	9.02	54.98	14.42	0.7153
99	47	9.1	53.17	14.31	0.6925
100	23	7.2	59.69	12.83	0.5515

Name of Division : Pratapgarh-I **Challan No. : 15/237**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	1481	4.54	64.00	12.69	0.3686
2	1402	4.27	41.13	13.66	0.2400
3	1449	4.44	67.84	13.86	0.4174
4	1457	6.98	56.51	12.79	0.5047
5	1452	4.12	64.89	12.90	0.3448
6	1427	7.58	64.90	14.65	0.7209
7	1463	4.21	67.95	13.29	0.3802
8	1451	4.24	59.91	14.79	0.3757
9	1455	3.92	64.45	13.36	0.3375
10	1467	5.13	55.22	14.47	0.4099
11	1434	7.11	60.01	14.71	0.6278
12	1477	7.45	63.53	13.79	0.6526
13	1433	7.01	51.44	14.79	0.5335
14	1490	4.99	59.03	13.96	0.4112
15	1412	4.48	53.85	15.17	0.3660
16	1499	4.54	64.75	13.14	0.3864
17	1498	4.37	59.30	15.21	0.3942
18	1468	4.7	58.50	13.20	0.3628
19	1483	4.54	58.43	13.43	0.3564
20	1414	4.51	54.97	13.53	0.3355
21	1425	7.3	55.27	16.19	0.6534
22	1446	5.44	54.73	13.37	0.3982
23	1487	7.74	61.22	13.30	0.6300
24	1441	4.18	56.17	13.16	0.3089
25	1489	4.87	54.64	12.19	0.3243
26	1493	4.52	55.84	14.74	0.3720
27	1417	7.53	59.24	14.08	0.6280
28	1408	7.64	56.07	15.30	0.6555
29	1404	4.56	50.07	16.30	0.3721
30	1475	4.51	63.03	10.65	0.3026
31	1439	4.29	58.36	15.34	0.3840
32	1405	6.76	61.43	13.10	0.5442
33	1479	4.49	53.77	15.34	0.3704
34	1411	7.15	52.12	15.20	0.5663
35	1482	4.56	54.79	15.77	0.3940
36	1423	4.65	58.46	14.27	0.3878

37	1462	7.01	66.21	11.19	0.5194
38	1466	3.61	61.49	11.17	0.2480
39	1418	7.59	61.09	15.32	0.7104
40	1469	4.39	55.71	14.20	0.3472
41	1440	4.18	52.07	14.42	0.3139
42	1478	4.65	59.33	12.78	0.3525
43	1447	8.04	63.30	14.80	0.7533
44	1473	8.72	48.56	14.42	0.6104
45	1472	9.01	57.35	14.61	0.7550
46	1456	3.78	57.17	13.24	0.2861
47	1488	7.59	60.46	13.61	0.6247
48	1438	8.5	60.35	13.07	0.6706
49	1471	9.5	55.33	13.66	0.7182
50	1470	7.43	55.02	13.76	0.5625
51	1500	7.6	56.66	13.36	0.5753
52	1429	6.91	56.24	12.57	0.4885
53	1401	4	63.88	13.74	0.3512
54	1459	4.58	59.67	13.29	0.3632
55	1424	7.34	54.30	13.96	0.5564
56	1409	3.84	51.52	12.50	0.2473
57	1403	4.66	54.16	13.96	0.3523
58	1496	7.17	55.05	12.32	0.4861
59	1442	4.26	62.36	12.92	0.3434
60	1421	4.61	62.19	13.75	0.3942
61	1422	7.67	60.69	14.02	0.6527
62	1416	7.18	58.23	13.57	0.5672
63	1448	2.09	65.92	12.71	0.1751
64	1458	4.32	63.28	12.15	0.3322
65	1415	7.46	57.53	15.17	0.6513
66	1465	4.19	60.50	13.44	0.3406
67	1420	7.25	57.47	15.96	0.6648
68	1464	4.1	66.19	13.16	0.3571
69	1486	4.54	57.35	12.29	0.3201
70	1461	7.78	61.23	12.40	0.5905
71	1450	8.11	62.99	13.30	0.6796
72	1444	8.55	59.17	13.89	0.7028
73	1431	8.4	55.78	12.93	0.6056
74	1476	9.21	55.57	15.08	0.7718
75	1410	7	45.27	17.01	0.5390
76	1485	4.73	59.53	12.78	0.3600
77	1445	4.04	63.14	10.75	0.2743
78	1428	4.48	64.99	13.83	0.4028
79	1407	7.42	55.30	13.83	0.5676
80	1453	7.13	60.17	14.11	0.6053
81	1454	7.09	62.72	13.66	0.6076
82	1413	3.51	60.19	14.55	0.3075
83	1491	7.37	68.61	12.62	0.6382
84	1436	4.22	57.25	14.20	0.3431
85	1430	7.09	53.20	13.95	0.5261
86	1474	4.46	64.39	13.12	0.3769

87	1497	5.01	58.56	13.99	0.4103
88	1432	7.09	51.00	14.35	0.5190
89	1406	4.53	44.25	13.20	0.2646
90	1435	6.97	58.10	13.01	0.5269
91	1426	7.61	57.28	13.32	0.5806
92	1484	7.65	65.98	12.73	0.6426
93	1437	3.57	59.18	13.48	0.2849
94	1460	3.62	53.60	13.32	0.2585
95	1443	7.11	60.51	13.92	0.5987
96	1492	7.64	61.06	15.03	0.7014
97	1494	5.14	53.46	13.64	0.3747
98	1480	4.61	61.92	12.19	0.3481
99	1419	7.5	62.09	13.98	0.6510
100	1495	4.63	53.69	13.73	0.3412

Date: 09.08.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Pratapgarh-I****Challan No. : 03/48**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	261	8.68	59.01	13.88	0.7109
2	214	9.11	57.39	14.38	0.7516
3	254	7.31	56.16	13.07	0.5366
4	297	7.06	52.71	15.41	0.5733
5	253	7.71	59.77	14.09	0.6492
6	286	7.17	49.50	13.72	0.4868
7	259	7.23	58.38	13.86	0.5849
8	264	7.29	66.70	12.85	0.6248
9	244	8.32	54.33	15.04	0.6797
10	229	8.56	56.05	13.31	0.6386
11	230	8.38	61.22	13.03	0.6687
12	227	6.96	62.16	13.10	0.5665
13	217	8.42	51.48	14.51	0.6290
14	281	7.04	52.66	16.08	0.5963
15	232	7.3	57.50	14.30	0.6001
16	278	7.33	53.99	13.85	0.5483
17	256	8.58	62.81	13.18	0.7104
18	224	7.69	59.77	13.67	0.6283
19	269	8.14	55.50	13.62	0.6154
20	206	7.16	58.46	14.49	0.6065
21	216	7.64	56.46	13.37	0.5768
22	252	7.24	60.50	14.99	0.6567
23	265	8.73	61.79	13.43	0.7246
24	257	7.36	66.15	13.21	0.6433
25	212	7.24	46.88	14.87	0.5046
26	220	8.86	48.23	12.96	0.5537
27	240	8.89	55.88	13.94	0.6925
28	248	8.63	59.06	13.27	0.6766
29	276	7.23	55.63	13.95	0.5610
30	202	8.34	47.97	15.86	0.6347
31	289	6.85	51.73	12.51	0.4432
32	275	8.48	54.00	14.19	0.6496
33	283	8.72	51.83	14.24	0.6435
34	231	7.27	57.34	13.93	0.5809
35	209	7.17	54.70	13.42	0.5263
36	234	9.12	56.34	12.89	0.6621
37	277	7.21	49.43	12.95	0.4614
38	298	8.16	59.45	14.31	0.6944
39	222	8.93	53.81	14.57	0.7001
40	251	8.35	54.59	15.94	0.7265
41	290	7.18	49.71	15.69	0.5600
42	213	7.37	45.29	13.87	0.4628

43	246	7.15	61.50	13.02	0.5727
44	235	7.1	61.48	14.36	0.6269
45	262	8.64	63.01	13.38	0.7284
46	233	8.78	63.49	13.20	0.7358
47	205	8.64	55.00	13.16	0.6255
48	284	8.43	51.87	14.52	0.6348
49	271	7.29	49.78	15.39	0.5584
50	258	6.93	60.23	14.48	0.6043
51	266	4.28	66.37	12.45	0.3535
52	245	4.6	56.39	13.39	0.3473
53	211	3.79	57.62	13.64	0.2979
54	294	3.23	50.36	14.42	0.2345
55	208	4.36	56.29	12.49	0.3065
56	299	7.12	54.48	13.36	0.5183
57	239	7.27	51.07	12.96	0.4813
58	237	7.25	58.37	13.14	0.5561
59	204	8.31	56.43	12.44	0.5834
60	279	7.48	53.35	15.43	0.6156
61	280	7.05	56.73	14.10	0.5640
62	292	7.14	52.45	13.17	0.4934
63	242	7.11	57.63	14.26	0.5844
64	228	7.2	52.16	13.59	0.5105
65	274	7.23	52.92	14.30	0.5473
66	238	7.34	57.00	13.81	0.5777
67	218	8.84	46.65	14.15	0.5834
68	249	7.05	59.79	13.73	0.5788
69	201	8.59	51.68	13.25	0.5884
70	285	7.45	52.67	14.56	0.5714
71	288	3.73	57.01	14.79	0.3144
72	226	3.39	58.97	14.84	0.2966
73	221	7.15	49.00	14.45	0.5062
74	247	8.88	62.97	12.99	0.7264
75	293	8.53	55.96	14.35	0.6850
76	300	4.11	47.52	15.78	0.3083
77	287	2.24	45.71	14.79	0.1514
78	296	4.02	52.28	13.91	0.2923
79	272	6.61	51.43	13.09	0.4449
80	260	9.14	54.55	13.97	0.6965
81	282	7.4	46.03	14.10	0.4803
82	267	8.89	65.62	13.65	0.7965
83	255	8.78	51.90	14.51	0.6611
84	210	8.22	58.90	13.87	0.6716
85	270	8.57	44.13	13.39	0.5065
86	215	4.29	52.75	13.84	0.3132
87	207	4.15	57.84	14.70	0.3528
88	295	4.48	51.78	14.45	0.3351
89	291	4.36	48.48	15.57	0.3292

90	250	8.66	64.90	14.38	0.8080
91	225	8.17	55.73	13.82	0.6291
92	236	7.44	60.18	15.25	0.6830
93	273	3.52	52.00	15.60	0.2855
94	203	4.29	50.73	15.61	0.3398
95	268	4.42	65.50	13.36	0.3868
96	263	9.03	55.93	14.64	0.7396
97	241	8.61	55.52	15.38	0.7353
98	219	8.96	44.73	14.73	0.5905
99	243	7.29	58.21	14.79	0.6277
100	223	7.15	54.10	14.68	0.5677

Date: 06.08.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Pratapgarh-I****Challan No. : 28/424**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	2701	7.33	66.18	13.4	0.6502
2	2702	4.23	58.83	14.43	0.3591
3	2703	3.71	52.85	15.02	0.2946
4	2704	6.93	64.37	14.46	0.6452
5	2705	7.14	64.31	13.4	0.6155
6	2706	4.22	58.65	14.32	0.3545
7	2707	7.19	59.1	14.11	0.5996
8	2708	3.88	37.02	13.8	0.1983
9	2709	3.5	46.92	13.26	0.2177
10	2710	5.66	47.08	14.95	0.3985
11	2711	7.13	47.89	11.25	0.3843
12	2712	6.97	51.24	14.11	0.5039
13	2713	6.81	51.41	13.81	0.4835
14	2714	4.37	46.93	13.72	0.2814
15	2715	4.29	59.16	13.76	0.3492
16	2716	4.03	50.29	12.43	0.2519
17	2717	4.19	59.15	13.73	0.3402
18	2718	7.27	49.05	14.8	0.5278
19	2719	3.93	56.5	13.56	0.301
20	2720	7.11	54.05	13.28	0.5105
21	2721	4.42	57.55	14.53	0.3695
22	2722	4.53	60.68	13.91	0.3823
23	2723	4.35	57.57	13.62	0.341
24	2724	7.26	60.12	13.01	0.5677
25	2725	7.6	59.71	11.34	0.5145
26	2726	4.21	52.47	14.9	0.3292
27	2727	1.32	52.92	16.55	0.1156
28	2728	6.51	59.57	14.25	0.5527
29	2729	4.44	54.76	13.84	0.3366
30	2730	4.34	57.7	13.78	0.345
31	2731	8.56	62.45	13.26	0.7088
32	2732	4.48	63	12.21	0.3445
33	2733	7.39	43.63	14.33	0.4619
34	2734	7.53	46.6	13.76	0.4827
35	2735	8.76	46.56	15.1	0.6158
36	2736	8.42	41.86	14.14	0.4985
37	2737	4.24	55.02	13.12	0.3061
38	2738	3.7	49.16	14.08	0.256
39	2739	7.09	52.65	14.66	0.5473
40	2740	7.47	56.2	13.75	0.5774
41	2741	3.98	56.13	14.45	0.3228
42	2742	4.13	50.64	13.63	0.285

43	2743	7.41	55.84	12.93	0.535
44	2744	7.51	54.97	14.99	0.6188
45	2745	7.05	59.67	13.27	0.5584
46	2746	8.62	55.68	13.38	0.6422
47	2747	8.98	59.34	13.67	0.7283
48	2748	7.2	54.12	13.3	0.5184
49	2749	7.73	60.69	12.06	0.5658
50	2750	4.41	55.54	14.66	0.359
51	2751	3.42	52.92	13.55	0.2452
52	2752	7.55	56.25	14.19	0.6025
53	2753	7.13	53	12.32	0.4656
54	2754	4.27	56.13	13.59	0.3258
55	2755	4.52	58.64	12.5	0.3313
56	2756	4.32	56.01	13.82	0.3344
57	2757	4.31	62.44	14.56	0.3918
58	2758	7.49	61.1	12.98	0.594
59	2759	4	57.51	13.3	0.306
60	2760	4.13	55.42	13.46	0.3081
61	2761	7.13	58.91	12.09	0.5077
62	2762	6.64	60.63	12.49	0.5026
63	2763	7.18	60.09	12.91	0.5572
64	2764	7.42	64.82	13.11	0.6307
65	2765	7.08	51.84	13.08	0.48
66	2766	4.38	56.43	13.24	0.3272
67	2767	4.28	58.68	11.37	0.2855
68	2768	7.17	64.59	12.34	0.5714
69	2769	6.94	37.51	13.36	0.3477
70	2770	3.4	47.87	14.33	0.2332
71	2771	7.35	38.26	14.82	0.4167
72	2772	6.98	49.68	15.14	0.5249
73	2773	6.83	40.82	13.94	0.3886
74	2774	3.99	50.18	12.99	0.2601
75	2775	4.02	48.26	13.26	0.2573
76	2776	3.99	49.35	14.43	0.2841
77	2777	3.74	46.64	13.77	0.2401
78	2778	3.69	46.01	14.84	0.252
79	2779	7.29	55.89	13.2	0.538
80	2780	3.7	55.31	12.28	0.2512
81	2781	3.82	47.49	14.17	0.2571
82	2782	4.45	58.57	13.83	0.3604
83	2783	3.91	54.15	14.94	0.3163
84	2784	7.3	52.44	13.84	0.53
85	2785	6.98	62.4	11.51	0.5012
86	2786	4.2	57.53	12.52	0.3024
87	2787	7.05	55.64	13.77	0.54
88	2788	4.16	58.8	12.91	0.3157
89	2789	7.2	56.86	13.42	0.5494

90	2790	4.13	49.5	13.58	0.2775
91	2791	4.36	53.06	14.62	0.3383
92	2792	4.31	59.6	13.57	0.3487
93	2793	4.36	47.7	14.4	0.2995
94	2794	4.12	48.58	14.27	0.2855
95	2795	2.56	49.02	14.3	0.1795
96	2796	7.12	57.11	14.04	0.571
97	2797	7.16	56.55	14.31	0.5792
98	2798	8.45	59.81	12.84	0.649
99	2799	7.5	46.25	12.86	0.4463
100	2800	3.85	64.66	13.45	0.335

Date: 05.08.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Pratapgarh-I****Challan No. : 16/238**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	1531	3.88	71.87	14.15	0.3946
2	1563	6.9	62.56	13.83	0.5969
3	1552	6.36	53.46	14.68	0.4993
4	1572	3.59	55.36	14.67	0.2915
5	1528	3.94	57.87	13.77	0.3140
6	1588	3.78	59.72	13.55	0.3058
7	1593	4.65	60.87	14.47	0.4097
8	1505	4.41	58.31	14.70	0.3779
9	1526	3.96	63.45	12.25	0.3077
10	1583	4.67	54.41	14.06	0.3573
11	1513	7.51	62.70	13.11	0.6173
12	1511	4.65	57.35	13.04	0.3478
13	1523	4.02	54.16	15.16	0.3300
14	1534	3.91	63.12	12.80	0.3159
15	1547	4.28	58.25	12.88	0.3210
16	1542	4.17	49.09	15.34	0.3140
17	1567	3.92	53.02	12.71	0.2642
18	1557	4.11	64.50	13.35	0.3539
19	1566	4.6	53.17	11.10	0.2714
20	1518	3.93	47.29	14.63	0.2720
21	1501	8.52	68.70	12.82	0.7506
22	1597	4.51	65.19	13.51	0.3973
23	1503	7.3	58.78	13.66	0.5862
24	1539	4.05	57.27	14.58	0.3382
25	1592	3.62	58.72	13.49	0.2867
26	1576	4.52	60.81	13.76	0.3783
27	1582	4.7	60.42	13.49	0.3830
28	1585	3.79	54.22	13.37	0.2748
29	1515	3.62	37.42	16.14	0.2186
30	1548	7.02	47.55	14.76	0.4928
31	1589	4.69	59.27	11.46	0.3185
32	1544	4.45	54.52	14.73	0.3573
33	1561	7.21	66.59	12.73	0.6114
34	1510	4.36	59.84	14.25	0.3719
35	1556	6.82	60.23	13.76	0.5654
36	1541	4	61.81	14.42	0.3564
37	1506	7.39	57.90	15.08	0.6451
38	1570	4.57	53.15	13.53	0.3286
39	1598	7.48	64.75	12.99	0.6291
40	1574	4.55	58.09	14.18	0.3749
41	1540	6.92	57.80	12.44	0.4975
42	1512	4.24	64.75	12.63	0.3468

43	1569	4.35	43.91	13.91	0.2658
44	1562	4.04	63.37	10.10	0.2586
45	1600	7	47.83	15.37	0.5145
46	1565	3.61	54.92	13.20	0.2617
47	1581	4.49	52.32	13.19	0.3098
48	1591	3.42	58.65	14.97	0.3003
49	1532	3.99	66.28	14.41	0.3810
50	1524	4.12	55.65	13.58	0.3115
51	1580	4.24	55.15	14.80	0.3460
52	1554	7.17	61.00	13.00	0.5686
53	1584	7.38	52.06	13.85	0.5321
54	1538	4.03	57.06	13.62	0.3131
55	1568	3.77	54.57	14.18	0.2918
56	1508	4.27	55.08	15.34	0.3608
57	1530	6.78	62.01	14.38	0.6048
58	1586	3.5	59.63	14.00	0.2923
59	1519	4.38	50.27	13.94	0.3070
60	1507	7.45	56.14	14.07	0.5885
61	1590	3.62	62.84	13.16	0.2994
62	1553	4.22	58.59	15.70	0.3882
63	1536	7.22	49.29	13.65	0.4859
64	1594	4.59	60.00	13.23	0.3644
65	1535	7.22	48.75	13.11	0.4614
66	1537	8.23	60.78	13.79	0.6897
67	1579	8.2	56.94	13.29	0.6207
68	1564	8.28	64.94	13.21	0.7104
69	1595	8.53	59.91	14.22	0.7268
70	1502	9.02	54.83	13.97	0.6909
71	1578	8.64	62.04	13.94	0.7474
72	1525	4.12	49.61	14.71	0.3008
73	1522	3.56	59.80	13.66	0.2909
74	1516	4.04	45.76	13.99	0.2586
75	1587	7.5	54.06	14.13	0.5730
76	1577	8.88	56.42	13.63	0.6829
77	1575	8.74	53.27	14.92	0.6948
78	1549	8.45	64.78	13.41	0.7343
79	1573	8.91	53.97	13.82	0.6647
80	1504	8.75	57.62	14.18	0.7149
81	1551	3.66	59.68	13.15	0.2873
82	1514	4.46	60.53	13.63	0.3679
83	1543	4.19	58.97	13.63	0.3369
84	1571	4.32	58.28	12.77	0.3214
85	1550	6.81	59.99	13.15	0.5373
86	1559	3.48	69.50	12.82	0.3101
87	1509	4.36	58.81	12.92	0.3314
88	1545	4.22	54.61	13.94	0.3211
89	1596	3.73	62.31	13.83	0.3215

90	1599	3.89	62.13	13.75	0.3322
91	1558	7.01	61.47	13.27	0.5720
92	1560	6.93	53.13	14.36	0.5288
93	1533	3.44	60.48	12.83	0.2669
94	1517	4.09	44.75	14.68	0.2687
95	1555	7.15	54.32	12.85	0.4991
96	1520	4.03	67.07	12.03	0.3252
97	1546	4.09	61.19	13.37	0.3346
98	1527	3.91	54.63	14.00	0.2991
99	1521	4.17	61.02	13.26	0.3374
100	1529	3.35	57.13	12.50	0.2392

Name of Division : Pratapgarh-I

Challan No. : 21/289

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	2010	4.04	63.95	13.24	0.3422
2	2082	8.52	59.82	13.59	0.6927
3	2084	8.59	55.65	14.70	0.7027
4	2063	8.63	61.47	12.66	0.6714
5	2100	4.37	62.61	12.19	0.3334
6	2028	7.38	61.57	11.81	0.5365
7	2042	7.43	59.25	12.62	0.5558
8	2081	4.29	60.68	13.37	0.3479
9	2059	7.33	63.28	13.16	0.6106
10	2009	7.26	59.85	12.90	0.5605
11	2016	4.06	58.88	13.72	0.3280
12	2015	4.11	68.20	13.24	0.3711
13	2068	6.93	53.33	13.73	0.5073
14	2060	4.16	59.25	13.30	0.3278
15	2031	4.53	60.58	13.59	0.3728
16	2099	7.11	48.50	15.65	0.5396
17	2030	4.28	44.12	14.01	0.2645
18	2077	4.17	58.45	15.33	0.3736
19	2018	6.51	50.00	15.20	0.4948
20	2002	4.07	60.98	10.99	0.2727
21	2029	7.54	52.35	13.05	0.5150
22	2022	7.23	59.84	13.10	0.5668
23	2014	4.68	64.72	14.31	0.4334
24	2041	4.25	59.76	13.34	0.3387
25	2078	4.28	42.56	15.48	0.2821
26	2086	3.85	46.50	14.45	0.2587
27	2005	4.49	57.94	13.07	0.3399
28	2007	4.18	57.86	13.91	0.3365
29	2065	7.14	64.99	12.31	0.5712
30	2069	6.82	59.03	12.60	0.5074
31	2020	4.57	44.66	14.46	0.2952
32	2023	4.68	64.33	11.64	0.3505
33	2067	7.22	69.19	12.13	0.6058
34	2098	4.41	65.84	12.88	0.3740
35	2079	3.86	56.25	15.63	0.3393
36	2044	4.24	64.13	12.58	0.3422

37	2036	7.38	62.13	13.79	0.6325
38	2089	7.13	56.40	13.42	0.5397
39	2032	4.1	60.59	12.96	0.3218
40	2071	7.04	55.30	14.76	0.5745
41	2057	4.42	67.16	11.55	0.3430
42	2021	7.49	55.73	13.64	0.5692
43	2051	4.07	47.83	14.36	0.2796
44	2083	7.17	56.05	9.47	0.3807
45	2043	4.32	54.40	12.54	0.2946
46	2064	4.18	69.22	13.67	0.3954
47	2075	7.1	54.84	12.91	0.5027
48	2049	7.45	60.93	13.44	0.6102
49	2024	7.19	51.68	13.49	0.5011
50	2025	4.05	55.07	12.80	0.2855
51	2019	4.41	50.82	13.36	0.2994
52	2094	4.29	50.45	14.05	0.3042
53	2072	7.1	50.04	13.19	0.4686
54	2095	7.38	50.11	13.97	0.5166
55	2046	4.45	52.48	12.35	0.2884
56	2070	3.51	55.23	13.60	0.2636
57	2090	4.03	50.72	14.89	0.3043
58	2035	4.39	50.27	12.07	0.2665
59	2008	4.06	54.10	15.25	0.3349
60	2088	7.14	52.70	14.54	0.5469
61	2091	4.25	47.11	13.18	0.2639
62	2017	6.6	69.60	14.15	0.6501
63	2087	4.45	55.43	13.44	0.3315
64	2092	4.4	62.61	13.45	0.3705
65	2055	4.44	61.83	12.86	0.3530
66	2053	4.2	54.71	14.97	0.3440
67	2096	4.38	51.20	14.24	0.3193
68	2061	4.36	55.40	12.98	0.3135
69	2074	7.53	53.00	13.23	0.5279
70	2085	4.48	44.55	13.38	0.2670
71	2011	7.15	60.23	14.86	0.6399
72	2093	6.9	50.98	15.14	0.5327
73	2001	4.26	58.91	13.65	0.3425
74	2047	7.35	63.43	13.24	0.6174
75	2080	4.16	48.71	14.45	0.2929
76	2006	4.39	59.53	13.72	0.3587
77	2076	4.25	54.03	12.66	0.2907
78	2039	7.04	56.36	12.08	0.4794
79	2034	4.44	59.44	14.33	0.3783
80	2040	4.51	56.34	13.58	0.3450
81	2073	7.39	62.15	14.56	0.6688
82	2058	4.39	63.84	13.71	0.3841
83	2037	7.31	64.81	12.51	0.5928
84	2033	7.35	53.69	13.58	0.5358
85	2062	4.17	60.03	13.29	0.3328
86	2026	7.43	58.63	11.99	0.5223

87	2097	4.18	61.24	12.69	0.3248
88	2056	6.38	62.49	12.24	0.4881
89	2045	4.21	59.82	11.62	0.2926
90	2050	7.23	61.94	11.25	0.5039
91	2013	4.29	62.98	11.10	0.2999
92	2054	4.51	57.47	12.84	0.3328
93	2066	4.1	63.83	12.85	0.3362
94	2012	3.91	57.65	11.71	0.2639
95	2003	4.05	59.96	14.09	0.3422
96	2004	6.91	55.36	13.80	0.5279
97	2048	7.04	64.72	11.29	0.5146
98	2038	4.43	62.45	11.69	0.3234
99	2052	4.22	60.77	12.01	0.3081
100	2027	7.61	51.01	13.55	0.5259

Date: 03.08.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Pratapgarh-I****Challan No. : 31/427**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	3048	4.5	61.46	12.66	0.3501
2	3033	3.5	55.32	13.05	0.2527
3	3083	4.3	56.81	14.26	0.3483
4	3020	4.11	54.40	11.95	0.2672
5	3042	4.14	49.29	15.70	0.3204
6	3096	4.32	54.17	14.93	0.3495
7	3069	7.65	60.52	14.56	0.6740
8	3090	4.24	64.01	14.83	0.4024
9	3060	4.39	71.16	13.53	0.4228
10	3002	4.15	54.25	13.77	0.3100
11	3005	4.28	66.81	13.56	0.3878
12	3054	5.23	53.61	14.66	0.4111
13	3015	7.58	50.34	13.15	0.5018
14	3030	4.51	65.19	12.85	0.3779
15	3051	4.78	58.91	13.38	0.3767
16	3097	4.36	54.15	14.18	0.3348
17	3016	7.52	47.66	14.29	0.5121
18	3018	6.86	51.40	14.30	0.5042
19	3053	4.53	56.87	14.88	0.3832
20	3095	4.38	57.95	14.20	0.3605
21	3036	3.35	56.47	13.92	0.2633
22	3084	4.11	50.39	13.06	0.2704
23	3007	7.02	63.87	13.70	0.6142
24	3062	4.1	67.60	14.02	0.3887
25	3049	4.7	56.45	14.77	0.3920
26	3008	3.76	61.46	13.44	0.3106
27	3035	3.93	53.14	14.89	0.3109
28	3071	4.2	56.68	15.91	0.3788
29	3081	4.14	58.42	16.07	0.3887
30	3077	4.23	58.01	14.26	0.3498
31	3070	7.82	64.72	13.92	0.7046
32	3001	3.65	58.03	13.34	0.2825
33	3041	4.37	55.07	15.63	0.3763
34	3092	4.73	49.13	15.63	0.3633
35	3006	7.18	56.71	13.98	0.5694
36	3034	4.28	46.51	15.70	0.3124
37	3011	3.66	71.07	14.42	0.3752
38	3058	4.96	69.22	12.99	0.4459
39	3074	4.28	50.64	13.49	0.2923
40	3075	4.11	56.46	14.90	0.3457
41	3065	4.52	53.49	13.27	0.3209
42	3045	4.3	54.71	15.19	0.3573

43	3031	4.61	56.87	14.31	0.3753
44	3061	3.84	46.03	14.32	0.2531
45	3100	4.44	51.51	16.25	0.3716
46	3076	4.41	60.49	13.11	0.3497
47	3089	4.11	66.63	13.00	0.3559
48	3078	7.33	51.49	11.61	0.4383
49	3003	1.14	60.78	14.31	0.0992
50	3044	4.32	58.93	15.27	0.3888
51	3099	4.46	59.56	13.48	0.3581
52	3072	4.31	59.42	13.82	0.3539
53	3013	3.16	54.12	14.75	0.2522
54	3019	4.08	60.12	14.07	0.3452
55	3029	4.35	57.88	13.23	0.3332
56	3093	7.67	58.73	13.01	0.5860
57	3040	7.12	56.69	14.25	0.5753
58	3025	7.57	55.00	14.31	0.5958
59	3098	4.28	57.97	14.44	0.3582
60	3023	7.47	47.76	14.72	0.5251
61	3050	4.57	56.77	13.72	0.3560
62	3024	7.6	60.54	13.48	0.6202
63	3017	7.84	51.97	15.14	0.6170
64	3068	7.63	54.90	14.50	0.6073
65	3026	3.57	54.50	13.41	0.2610
66	3004	3.65	66.45	14.01	0.3398
67	3046	4.32	60.06	12.72	0.3300
68	3014	4	45.08	15.91	0.2868
69	3080	4.18	65.02	12.86	0.3494
70	3055	4.38	59.32	13.47	0.3500
71	3039	6.77	63.85	14.86	0.6425
72	3010	4.32	62.34	11.68	0.3145
73	3056	4.01	69.67	13.12	0.3665
74	3085	7.05	63.50	13.98	0.6260
75	3027	4.47	59.23	15.03	0.3978
76	3012	3.98	43.31	15.61	0.2690
77	3079	4.21	63.93	12.36	0.3326
78	3047	4.43	59.68	12.38	0.3274
79	3082	4.13	50.34	13.75	0.2858
80	3021	3.97	58.32	14.73	0.3410
81	3052	4.34	51.02	16.86	0.3732
82	3043	4.21	58.61	14.74	0.3637
83	3086	4.44	61.28	15.78	0.4293
84	3073	4.27	51.82	14.45	0.3198
85	3009	3.07	65.91	13.43	0.2717
86	3067	6.89	51.30	15.56	0.5498
87	3088	6.71	52.97	14.52	0.5160
88	3028	4.2	55.74	14.80	0.3465
89	3038	3.97	60.33	14.01	0.3355

90	3063	4.14	57.05	12.81	0.3026
91	3059	4.43	59.98	12.84	0.3411
92	3032	3.79	59.07	13.68	0.3062
93	3057	4.29	55.95	13.15	0.3157
94	3091	4.01	62.49	14.40	0.3609
95	3087	4.25	63.31	10.28	0.2767
96	3037	3.91	55.68	14.13	0.3077
97	3066	4.36	58.17	14.35	0.3641
98	3022	4.38	54.57	12.77	0.3053
99	3094	4.5	63.21	13.32	0.3789
100	3064	3.98	53.41	13.57	0.2885

Date: 02.08.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Pratapgarh-I****Challan No. : 14/236**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	1394	6.99	51.57	13.54	0.4879
2	1386	6.83	55.01	14.00	0.5259
3	1392	4.38	52.72	15.38	0.3552
4	1380	7.45	42.11	16.05	0.5036
5	1341	4.25	48.47	14.09	0.2903
6	1355	4.6	61.73	14.30	0.4062
7	1335	7.24	56.04	14.40	0.5843
8	1323	4.42	62.88	13.53	0.3761
9	1340	4.33	55.63	13.63	0.3282
10	1302	7.04	48.44	14.91	0.5083
11	1372	4.35	51.10	15.32	0.3406
12	1356	7.29	54.06	14.41	0.5679
13	1395	6.59	51.55	15.07	0.5120
14	1382	3.65	50.39	15.28	0.2810
15	1332	4.5	64.01	13.06	0.3762
16	1371	8.51	69.45	12.71	0.7514
17	1396	8.06	56.02	12.58	0.5682
18	1369	8.48	61.12	14.69	0.7615
19	1344	3.9	62.25	13.98	0.3393
20	1360	4.42	64.06	14.64	0.4146
21	1333	4.56	64.08	12.91	0.3771
22	1398	6.82	61.95	12.22	0.5163
23	1399	3.57	58.84	13.05	0.2742
24	1314	4.43	59.88	11.84	0.3141
25	1301	7.46	64.90	13.25	0.6416
26	1358	4.84	58.69	15.16	0.4308
27	1308	7.4	55.05	13.30	0.5417
28	1377	4.56	48.19	13.43	0.2950
29	1373	7.5	72.68	13.54	0.7380
30	1361	7.61	59.80	12.96	0.5898
31	1350	6.9	56.70	14.71	0.5755
32	1351	6.65	51.96	15.09	0.5214
33	1388	7.59	51.57	15.07	0.5897
34	1397	4.02	61.02	14.68	0.3602
35	1393	7.03	42.12	14.34	0.4246
36	1339	4.17	56.23	14.19	0.3328
37	1367	6.46	65.44	14.88	0.6292
38	1385	4.24	53.29	12.84	0.2900
39	1337	4.09	53.05	13.63	0.2957
40	1330	7.68	54.47	12.59	0.5268
41	1343	7.19	59.57	12.98	0.5558
42	1354	4.16	63.36	14.13	0.3723

43	1366	7.24	61.22	14.59	0.6465
44	1306	4.55	65.53	10.76	0.3208
45	1319	7.22	65.16	11.05	0.5198
46	1347	7.18	65.53	13.70	0.6448
47	1363	4.02	60.31	13.18	0.3196
48	1317	7.34	54.50	11.83	0.4734
49	1305	7.47	59.66	13.29	0.5924
50	1346	7.59	60.70	14.14	0.6512
51	1352	8.33	65.72	13.68	0.7489
52	1357	4.48	59.49	15.94	0.4247
53	1370	4.35	64.65	13.49	0.3793
54	1331	4.27	61.47	12.80	0.3360
55	1342	7.46	64.12	13.62	0.6513
56	1374	4.12	64.13	14.22	0.3757
57	1311	4.3	63.63	13.36	0.3655
58	1313	7.49	62.45	12.68	0.5932
59	1381	8.15	56.02	13.96	0.6373
60	1327	4.43	56.73	12.92	0.3247
61	1391	4.29	54.35	14.63	0.3411
62	1326	8.67	63.47	13.31	0.7326
63	1349	4.15	54.95	15.45	0.3523
64	1318	8.4	58.60	12.71	0.6258
65	1384	8.01	52.71	14.84	0.6264
66	1316	8.89	60.87	13.85	0.7494
67	1353	8.1	57.23	15.39	0.7136
68	1312	8.93	58.02	13.86	0.7180
69	1315	8.75	59.04	11.67	0.6029
70	1325	8.75	62.62	12.22	0.6694
71	1336	2.31	53.83	15.72	0.1954
72	1321	7.34	61.57	12.86	0.5813
73	1320	6.95	58.02	13.25	0.5345
74	1334	3.11	45.26	16.26	0.2289
75	1368	7.23	65.53	13.00	0.6160
76	1379	4.12	46.53	15.00	0.2876
77	1359	4.57	59.27	13.75	0.3725
78	1376	3.55	63.08	13.19	0.2954
79	1383	6.89	53.34	14.44	0.5305
80	1390	3.8	58.44	13.18	0.2926
81	1310	8.96	63.01	12.14	0.6854
82	1345	7.9	64.85	14.26	0.7307
83	1375	10.27	64.85	12.51	0.8329
84	1362	8.88	58.20	13.42	0.6935
85	1328	9.18	62.15	12.49	0.7124
86	1389	4.31	52.25	15.89	0.3577
87	1309	4.21	59.39	12.09	0.3023
88	1365	6.57	63.95	13.60	0.5716
89	1329	7.37	65.39	14.12	0.6803

90	1322	7.32	63.84	10.89	0.5087
91	1304	6.97	57.20	12.40	0.4942
92	1303	7.18	53.76	11.33	0.4373
93	1338	3.85	57.62	14.61	0.3242
94	1387	3.41	62.59	12.99	0.2772
95	1364	4.38	61.43	14.37	0.3868
96	1378	4.22	63.03	13.83	0.3680
97	1307	7.2	56.31	11.56	0.4687
98	1324	4.12	60.14	12.92	0.3201
99	1400	4.15	64.88	11.51	0.3100
100	1348	7.18	54.09	13.35	0.5184

Name of Division : Pratapgarh-I **Challan No. : 17/239**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	1699	7.49	59.48	14.36	0.6396
2	1641	4.2	51.14	13.81	0.2965
3	1636	7.37	47.58	14.44	0.5063
4	1680	6.97	56.32	14.75	0.5792
5	1609	4.24	60.46	14.37	0.3685
6	1640	3.88	43.78	14.30	0.2429
7	1604	4.13	54.00	12.39	0.2763
8	1631	7.15	41.06	13.64	0.4004
9	1603	4.23	54.05	13.93	0.3185
10	1659	4.45	53.33	12.90	0.3062
11	1610	4.33	59.98	14.24	0.3698
12	1622	7.11	55.24	15.22	0.5980
13	1611	4.44	59.25	14.08	0.3703
14	1686	4.19	59.79	15.00	0.3758
15	1665	4.22	41.86	15.70	0.2773
16	1654	8.37	54.28	14.44	0.6562
17	1656	8.39	57.70	14.32	0.6930
18	1688	8.93	51.44	15.09	0.6930
19	1624	8.1	62.39	13.56	0.6853
20	1630	7.63	49.24	16.04	0.6028
21	1669	3.61	47.62	15.92	0.2736
22	1679	3.68	58.71	12.64	0.2731
23	1613	4.08	64.92	12.75	0.3378
24	1674	4.43	52.42	13.75	0.3194
25	1657	4.5	57.43	8.51	0.2200
26	1694	4.59	63.32	14.72	0.4278
27	1644	7.11	53.71	11.86	0.4529
28	1620	7.1	55.05	13.44	0.5254
29	1616	4.26	59.71	12.36	0.3144
30	1642	7.23	45.94	15.61	0.5184
31	1606	4.08	54.26	14.19	0.3142
32	1649	3.38	53.25	14.63	0.2633
33	1651	7.44	46.41	15.41	0.5320
34	1653	7.47	54.91	11.36	0.4661
35	1684	7.35	56.89	12.50	0.5226
36	1619	7.13	60.63	13.18	0.5697

37	1682	3.64	51.98	13.29	0.2515
38	1677	7.16	56.79	10.62	0.4317
39	1637	7.32	49.83	13.25	0.4831
40	1663	7.07	52.73	11.74	0.4376
41	1625	6.88	65.54	12.39	0.5587
42	1672	3.49	52.18	13.30	0.2422
43	1678	6.97	58.59	13.24	0.5409
44	1658	4.39	55.25	13.36	0.3240
45	1652	4.12	54.32	15.06	0.3370
46	1623	8.27	67.87	12.42	0.6972
47	1617	8.37	60.13	12.47	0.6277
48	1627	6.96	56.93	13.47	0.5338
49	1605	6.89	54.47	14.69	0.5512
50	1615	7.03	60.16	13.18	0.5575
51	1664	7.29	55.22	13.42	0.5402
52	1687	4.59	58.50	13.49	0.3622
53	1638	7.2	46.14	15.06	0.5004
54	1614	7.12	57.97	13.78	0.5689
55	1660	6.98	47.48	14.70	0.4872
56	1608	4.28	60.08	14.03	0.3608
57	1691	7.19	60.16	13.75	0.5946
58	1692	7.31	64.70	13.80	0.6528
59	1666	7.05	53.39	13.39	0.5041
60	1670	7.16	50.81	13.50	0.4912
61	1698	7	57.16	14.50	0.5803
62	1633	4.57	44.89	14.97	0.3071
63	1696	6.99	58.28	14.22	0.5795
64	1662	4.22	43.12	12.06	0.2194
65	1661	3.24	46.35	13.44	0.2019
66	1700	8.11	62.03	15.25	0.7672
67	1628	7.12	60.73	13.58	0.5874
68	1601	3.51	57.29	14.73	0.2962
69	1667	3.98	50.42	14.62	0.2933
70	1607	4.17	61.89	13.78	0.3557
71	1602	4.07	54.23	13.83	0.3053
72	1685	4.14	59.13	12.75	0.3122
73	1676	6.84	44.84	14.99	0.4596
74	1629	7.46	65.19	12.98	0.6311
75	1690	4.33	59.57	13.21	0.3408
76	1639	7.22	49.94	14.14	0.5097
77	1683	4.4	56.61	13.58	0.3384
78	1681	7.32	56.39	13.23	0.5461
79	1668	6.34	48.15	13.19	0.4026
80	1693	4.52	57.38	12.93	0.3354
81	1675	4.12	48.37	15.28	0.3045
82	1646	3.51	57.55	14.28	0.2885
83	1645	7.23	54.86	14.42	0.5719
84	1689	7.23	58.25	12.96	0.5459
85	1618	7.61	56.42	14.36	0.6164
86	1632	4.57	47.09	14.04	0.3021

87	1647	7.31	54.98	12.91	0.5190
88	1648	4.16	57.47	12.89	0.3083
89	1634	7.48	46.90	15.57	0.5460
90	1626	7.01	65.00	12.02	0.5475
91	1612	3.9	60.31	14.29	0.3362
92	1655	7.68	53.09	14.11	0.5752
93	1671	7.45	51.54	13.60	0.5222
94	1695	7.34	54.58	14.33	0.5740
95	1635	7.04	39.32	18.26	0.5055
96	1673	6.91	49.42	14.18	0.4844
97	1621	4.04	58.59	12.19	0.2885
98	1643	7.14	54.55	12.74	0.4962
99	1697	4.49	63.55	11.16	0.3183
100	1650	4.2	47.85	13.86	0.2785

Date: 01.08.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Pratapgarh-I****Challan No. : 26/395**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	2531	4.44	54.34	14.30	0.3450
2	2526	3.64	55.93	13.62	0.2774
3	2551	4.37	55.74	13.28	0.3234
4	2515	2.07	48.65	16.16	0.1627
5	2599	4.32	59.73	13.64	0.3521
6	2569	3.49	60.00	13.12	0.2747
7	2560	4.2	59.16	15.23	0.3784
8	2595	4.31	63.17	13.65	0.3715
9	2591	8.42	58.41	13.78	0.6778
10	2545	7.35	61.61	14.15	0.6409
11	2542	6.96	65.77	12.51	0.5728
12	2585	4.49	64.78	12.21	0.3552
13	2532	4.23	60.54	13.40	0.3431
14	2592	4.27	59.73	11.85	0.3023
15	2549	3.36	54.16	14.20	0.2584
16	2502	3.85	70.27	13.08	0.3538
17	2523	4.06	62.47	14.23	0.3609
18	2593	7.42	57.55	14.09	0.6018
19	2536	3.45	55.27	13.91	0.2653
20	2563	4.17	52.77	14.67	0.3228
21	2508	3.51	53.65	13.25	0.2496
22	2589	3.65	57.79	13.05	0.2752
23	2578	3.95	59.64	13.75	0.3239
24	2581	7.49	60.50	14.12	0.6396
25	2543	4.42	60.29	13.02	0.3470
26	2566	4.24	59.72	11.27	0.2854
27	2594	4.11	55.56	14.24	0.3251
28	2520	4.42	61.51	12.88	0.3501
29	2505	4.55	68.12	12.33	0.3822
30	2567	3.3	54.10	13.36	0.2386
31	2576	3.52	61.12	14.94	0.3214
32	2507	3.98	51.53	14.71	0.3017
33	2529	4.18	64.38	13.45	0.3620
34	2535	4.14	60.74	13.40	0.3370
35	2559	4.11	54.27	14.37	0.3206
36	2557	1.92	54.13	15.39	0.1599
37	2514	3.88	51.08	15.86	0.3143
38	2517	4.11	61.83	13.50	0.3432
39	2510	3.59	55.52	13.47	0.2685
40	2552	3.97	56.29	13.16	0.2942
41	2512	3.99	53.01	14.13	0.2989
42	2570	4.54	52.75	11.83	0.2833

43	2575	3.62	61.81	12.83	0.2871
44	2504	6.82	73.89	11.99	0.6043
45	2580	6.97	57.23	14.78	0.5897
46	2571	4.28	61.99	13.87	0.3681
47	2503	8.43	67.97	12.74	0.7300
48	2558	3.83	47.44	15.26	0.2773
49	2590	4.26	55.57	14.72	0.3485
50	2573	3.12	60.09	12.70	0.2381
51	2509	3.15	53.46	15.25	0.2567
52	2511	3.73	48.24	14.68	0.2641
53	2584	4.23	52.37	13.84	0.3067
54	2586	3.64	50.16	14.17	0.2588
55	2600	6.89	58.40	13.20	0.5312
56	2597	7.19	58.15	12.30	0.5141
57	2539	3.7	64.92	11.69	0.2808
58	2524	3.98	63.33	13.48	0.3399
59	2544	4.23	66.55	11.83	0.3329
60	2561	4.13	56.01	13.84	0.3201
61	2506	7.19	64.65	13.29	0.6176
62	2588	7.45	53.39	14.27	0.5677
63	2548	4.24	59.96	13.66	0.3473
64	2513	3.45	53.56	11.22	0.2073
65	2564	4	54.32	13.99	0.3040
66	2596	7.43	58.02	13.01	0.5610
67	2533	4.27	57.68	14.77	0.3638
68	2579	4	59.15	13.07	0.3092
69	2554	3.71	49.93	13.68	0.2534
70	2540	3.48	44.81	14.48	0.2259
71	2522	7.52	57.51	13.95	0.6031
72	2530	4.07	47.48	13.96	0.2698
73	2518	7.43	58.64	13.06	0.5691
74	2525	4.04	61.55	14.10	0.3507
75	2553	3.97	53.07	10.57	0.2227
76	2598	4.18	57.62	13.29	0.3202
77	2583	3.9	58.92	12.12	0.2785
78	2565	4.27	61.21	13.15	0.3437
79	2516	3.46	50.17	13.43	0.2332
80	2528	4.19	54.28	13.10	0.2979
81	2527	3.97	56.65	13.68	0.3077
82	2556	4.56	57.51	12.71	0.3333
83	2546	4.18	63.43	13.18	0.3494
84	2538	3.67	55.01	13.83	0.2793
85	2574	6.93	62.43	13.74	0.5946
86	2587	4.15	53.23	14.37	0.3175
87	2541	4.34	51.41	13.15	0.2934
88	2582	4.72	45.95	14.73	0.3195
89	2562	7.17	50.63	14.52	0.5270

90	2572	4.18	61.81	15.29	0.3950
91	2519	4.21	57.87	15.52	0.3781
92	2547	3.56	42.04	16.44	0.2460
93	2555	3.5	50.05	9.87	0.1729
94	2577	4.48	59.93	14.80	0.3974
95	2568	3.57	57.01	15.12	0.3077
96	2521	3.68	50.59	14.57	0.2712
97	2537	4.1	52.05	12.37	0.2640
98	2550	3.66	43.86	16.03	0.2573
99	2501	4.19	72.01	13.82	0.4169
100	2534	4.21	53.66	15.65	0.3536

Date: 30.07.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Pratapgarh-I****Challan No. : 27/396**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	2689	4.37	55.93	14.29	0.3492
2	2694	7.03	54.46	13.59	0.5202
3	2615	9.2	44.03	15.29	0.6192
4	2667	7.51	61.34	12.03	0.5542
5	2684	8.53	58.40	14.25	0.7097
6	2673	9.38	49.14	13.84	0.6378
7	2676	7.04	51.42	15.31	0.5540
8	2679	8.59	58.41	12.36	0.6202
9	2658	3.49	54.05	15.36	0.2897
10	2630	3.88	58.65	13.30	0.3026
11	2670	7.42	47.60	14.64	0.5172
12	2652	3.26	57.95	13.63	0.2575
13	2637	3.36	53.20	14.53	0.2597
14	2697	4.37	60.26	13.06	0.3439
15	2617	3.54	55.92	13.48	0.2669
16	2671	7.42	47.70	14.99	0.5305
17	2685	7.14	66.01	11.80	0.5562
18	2680	7.46	60.48	13.44	0.6065
19	2668	7.46	63.70	12.87	0.6117
20	2678	7.12	52.09	15.68	0.5817
21	2602	4.29	56.63	12.86	0.3123
22	2674	3.41	46.34	16.42	0.2595
23	2640	4.32	54.94	13.91	0.3300
24	2651	4.1	59.08	15.08	0.3653
25	2655	7.1	46.34	15.71	0.5169
26	2669	7.2	44.33	14.14	0.4514
27	2636	3.98	46.51	14.86	0.2750
28	2644	3.14	60.88	15.03	0.2873
29	2624	3.48	57.09	12.73	0.2530
30	2625	4.42	63.38	14.17	0.3969
31	2657	3.6	49.77	14.12	0.2531
32	2691	3.47	63.83	13.68	0.3029
33	2661	3.58	51.99	13.73	0.2556
34	2659	3.66	43.15	14.65	0.2313
35	2639	4.17	53.57	13.50	0.3015
36	2693	7.47	59.98	13.37	0.5991
37	2699	7.38	65.11	13.79	0.6627
38	2700	8.82	53.53	14.01	0.6615
39	2688	6.81	54.12	14.78	0.5448
40	2677	7.22	55.36	14.02	0.5603
41	2626	3.59	53.75	13.23	0.2552
42	2663	3.11	53.63	9.83	0.1639

43	2610	7	58.48	13.00	0.5320
44	2654	3.53	58.46	12.80	0.2640
45	2623	4.07	59.65	13.71	0.3329
46	2603	4.49	57.89	14.70	0.3821
47	2641	4.23	49.32	14.29	0.2982
48	2604	4.26	65.79	13.45	0.3770
49	2628	4.06	56.46	13.78	0.3159
50	2662	4.3	51.03	12.62	0.2769
51	2648	3.81	50.87	13.90	0.2694
52	2601	7.41	56.78	14.12	0.5943
53	2607	4.06	59.02	14.67	0.3516
54	2605	4.46	62.79	13.00	0.3639
55	2649	3.38	57.48	13.31	0.2586
56	2622	3.66	64.93	13.01	0.3093
57	2687	3.83	53.24	13.02	0.2654
58	2633	6.78	55.16	14.79	0.5532
59	2606	4.41	61.65	13.38	0.3638
60	2682	3.8	51.79	14.11	0.2778
61	2608	4.23	53.73	14.01	0.3185
62	2612	3.93	52.70	13.51	0.2798
63	2647	3.91	59.55	13.30	0.3097
64	2627	4.37	57.03	13.38	0.3334
65	2646	4.35	53.83	14.27	0.3341
66	2660	3.56	44.08	15.86	0.2488
67	2629	3.8	67.66	13.07	0.3359
68	2638	4.47	52.87	13.96	0.3299
69	2631	4.28	65.71	12.86	0.3617
70	2692	3.46	70.09	13.11	0.3180
71	2683	7.43	48.57	15.59	0.5625
72	2645	3.7	46.36	12.21	0.2094
73	2650	3.7	49.01	16.22	0.2942
74	2618	3.8	45.60	13.86	0.2402
75	2664	3.2	46.81	15.38	0.2304
76	2634	4.34	65.32	11.99	0.3398
77	2616	4.41	56.76	12.88	0.3224
78	2621	7.39	56.43	14.02	0.5845
79	2619	3.77	53.30	14.26	0.2865
80	2614	4.21	55.02	14.14	0.3275
81	2642	3.95	57.54	13.90	0.3160
82	2672	3.56	50.29	15.27	0.2734
83	2698	3.92	56.20	14.36	0.3163
84	2643	3.58	54.85	15.55	0.3054
85	2666	4.48	59.43	12.64	0.3364
86	2635	3.85	58.84	13.72	0.3107
87	2613	3.74	50.59	13.74	0.2599
88	2696	3.81	62.01	13.09	0.3094
89	2665	3.6	66.08	11.94	0.2840

90	2681	4.13	57.31	14.15	0.3349
91	2690	3.57	61.87	13.06	0.2885
92	2695	7.11	58.11	12.68	0.5240
93	2675	4.04	49.57	13.38	0.2679
94	2632	3.55	58.98	12.83	0.2687
95	2620	4.23	60.48	10.96	0.2804
96	2656	4.46	49.48	15.66	0.3457
97	2609	4.45	66.51	13.61	0.4027
98	2653	4.4	64.93	13.31	0.3802
99	2611	3.66	65.78	15.07	0.3627
100	2686	4.22	53.43	14.64	0.3300

Date: 29.07.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Pratapgarh-I****Challan No. : 12/169**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	1194	8.58	64.26	10.68	0.5886
2	1115	6.82	52.97	14.46	0.5224
3	1102	4.55	64.32	11.78	0.3449
4	1110	4.18	65.06	12.27	0.3336
5	1150	7.4	65.86	11.92	0.5809
6	1116	6.46	56.95	14.21	0.5226
7	1142	3.42	55.65	14.39	0.2739
8	1199	4.49	63.67	12.14	0.3471
9	1118	7.07	53.18	14.50	0.5451
10	1143	4.2	57.82	15.50	0.3763
11	1136	4.15	58.22	14.70	0.3552
12	1169	7.28	60.32	13.89	0.6101
13	1186	7.33	63.50	14.13	0.6575
14	1144	8.68	61.70	13.68	0.7326
15	1154	9.37	66.80	13.73	0.8592
16	1111	7.13	62.03	13.25	0.5861
17	1103	7.53	65.00	11.57	0.5663
18	1123	7.1	48.79	15.09	0.5226
19	1182	8.35	64.75	14.25	0.7707
20	1197	9.12	59.86	13.03	0.7114
21	1162	9.07	64.66	13.86	0.8127
22	1178	4.13	62.31	14.38	0.3700
23	1195	4.45	64.92	11.77	0.3400
24	1149	8.93	60.81	13.12	0.7126
25	1108	8.51	68.59	11.63	0.6791
26	1126	3.97	46.12	12.94	0.2370
27	1101	7.44	61.84	13.03	0.5997
28	1112	9.04	69.55	12.11	0.7612
29	1141	8.49	49.69	14.91	0.6291
30	1125	4.21	55.54	14.98	0.3503
31	1158	4.19	58.12	14.35	0.3494
32	1180	9	71.42	13.40	0.8613
33	1146	7.33	60.02	14.45	0.6355
34	1114	4.02	40.95	15.29	0.2517
35	1134	4.16	53.25	12.68	0.2808
36	1187	7.05	62.41	13.09	0.5760
37	1189	7.15	61.97	14.14	0.6263
38	1127	8.39	56.02	14.62	0.6871
39	1119	6.72	45.91	15.62	0.4818
40	1177	7.48	67.00	13.22	0.6627
41	1193	8.73	57.22	10.57	0.5282
42	1159	8.69	65.58	14.15	0.8064

43	1121	6.92	55.58	12.92	0.4969
44	1170	3.84	56.44	13.84	0.2999
45	1167	7.6	60.43	11.82	0.5426
46	1175	8.68	65.75	15.01	0.8567
47	1176	6.94	61.96	13.35	0.5739
48	1191	8.74	68.33	15.41	0.9203
49	1188	7.61	64.10	14.43	0.7039
50	1139	8.53	56.86	13.51	0.6551
51	1107	7.15	61.92	13.00	0.5756
52	1145	7.52	56.73	14.40	0.6144
53	1104	7.11	64.71	14.33	0.6591
54	1156	7.25	59.58	15.02	0.6489
55	1155	8.65	61.35	13.82	0.7335
56	1200	4.31	63.40	13.44	0.3672
57	1181	7.17	59.48	12.59	0.5370
58	1166	7.21	63.20	13.28	0.6049
59	1184	7.28	64.95	14.20	0.6712
60	1117	6.67	48.63	15.73	0.5103
61	1152	7.18	63.52	11.68	0.5328
62	1160	8.62	55.96	14.69	0.7086
63	1122	3.78	53.17	14.41	0.2895
64	1130	4.02	59.89	11.55	0.2782
65	1140	4.59	60.16	12.62	0.3484
66	1164	8.65	59.89	13.41	0.6946
67	1131	4.76	55.83	14.15	0.3760
68	1138	7.36	51.24	13.64	0.5145
69	1190	3.47	60.33	15.38	0.3220
70	1168	4.34	59.40	14.04	0.3620
71	1113	4.26	72.94	12.65	0.3932
72	1109	1.05	70.66	13.94	0.1034
73	1147	3.09	45.02	15.70	0.2185
74	1179	7.3	61.07	14.34	0.6395
75	1153	8.39	64.27	14.07	0.7585
76	1183	8.76	68.39	14.17	0.8488
77	1132	7.47	41.65	15.25	0.4743
78	1120	6.85	52.42	15.41	0.5535
79	1128	4.51	48.92	14.96	0.3301
80	1172	7.47	62.05	13.86	0.6424
81	1171	7.31	59.76	14.01	0.6118
82	1105	7.24	70.22	11.39	0.5792
83	1129	4.14	49.50	15.19	0.3113
84	1173	6.9	62.75	12.33	0.5341
85	1196	6.93	57.26	13.08	0.5191
86	1198	4.27	60.44	12.26	0.3164
87	1135	3.96	53.27	15.24	0.3216
88	1133	4.26	46.12	16.46	0.3233
89	1161	7.44	58.50	15.28	0.6651

90	1124	4.29	55.87	14.95	0.3582
91	1185	7.18	65.57	12.41	0.5845
92	1157	8.6	62.41	14.40	0.7731
93	1151	7.32	64.47	11.94	0.5636
94	1163	4.13	65.70	13.65	0.3705
95	1174	8.64	62.24	13.58	0.7301
96	1165	7.31	65.80	13.01	0.6257
97	1106	4.22	64.86	12.50	0.3422
98	1137	7.21	55.00	13.67	0.5422
99	1192	7.45	53.95	13.14	0.5282
100	1148	4.04	52.32	15.04	0.3179

Date: 27.07.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Pratapgarh-I****Challan No. : 34/430**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	3320	4.29	65.30	13.11	0.3672
2	3306	7.52	56.96	13.41	0.5745
3	3323	7.26	63.17	12.55	0.5757
4	3316	4.4	57.97	14.11	0.3599
5	3304	4.19	52.21	13.77	0.3013
6	3311	4.29	57.92	13.00	0.3230
7	3302	4.42	49.08	14.73	0.3196
8	3321	4.19	61.60	13.86	0.3578
9	3309	4.41	63.71	14.27	0.4009
10	3314	4.26	62.89	15.57	0.4171
11	3325	4.22	67.73	13.44	0.3840
12	3308	4.29	62.62	13.06	0.3509
13	3319	4.25	58.95	12.69	0.3179
14	3324	4.53	56.47	13.87	0.3547
15	3318	4.35	58.65	13.25	0.3380
16	3301	3.71	56.25	14.13	0.2949
17	3322	7.44	63.66	13.85	0.6562
18	3315	4.21	56.27	15.48	0.3667
19	3312	4.65	63.11	12.72	0.3734
20	3317	4.3	56.88	12.85	0.3143
21	3305	4.51	62.06	13.68	0.3829
22	3303	4.5	56.36	13.18	0.3343
23	3313	4.57	61.58	13.35	0.3757
24	3310	4.36	61.23	13.54	0.3614
25	3307	7.4	56.98	13.92	0.5868

Date: 23.07.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Pratapgarh-I****Challan No. : 24/333**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	2371	4.33	61.18	13.65	0.3616
2	2391	4.1	58.66	12.72	0.3059
3	2325	7.24	66.84	13.78	0.6668
4	2308	4.46	63.13	13.96	0.3929
5	2398	6.93	49.47	14.25	0.4886
6	2311	4.28	60.00	13.10	0.3364
7	2374	4.44	60.97	15.20	0.4116
8	2307	4.22	54.98	14.75	0.3422
9	2355	6.72	60.96	13.34	0.5463
10	2386	7.5	67.47	13.68	0.6922
11	2367	7.22	63.00	14.02	0.6375
12	2316	4.33	59.35	14.05	0.3611
13	2380	4.26	55.25	14.82	0.3489
14	2301	7.58	61.19	13.81	0.6405
15	2351	3.89	68.04	14.05	0.3719
16	2361	6.97	69.83	12.83	0.6245
17	2312	4.31	52.02	14.36	0.3220
18	2302	4.73	68.16	13.54	0.4366
19	2339	4.06	61.48	12.96	0.3236
20	2366	4.34	60.49	12.38	0.3251
21	2395	7.01	60.68	14.14	0.6015
22	2381	4.3	65.46	13.52	0.3806
23	2354	4.16	69.32	13.20	0.3806
24	2324	4.44	65.32	14.67	0.4254
25	2370	4.21	60.60	14.97	0.3818
26	2327	4.18	65.11	13.25	0.3607
27	2392	6.39	61.78	12.45	0.4914
28	2385	7.47	60.10	13.26	0.5954
29	2393	8.44	63.14	13.38	0.7132
30	2332	4.28	64.77	13.77	0.3818
31	2303	4.44	65.26	13.32	0.3858
32	2356	4.17	70.86	12.04	0.3557
33	2400	8.12	59.51	13.85	0.6691
34	2313	7.48	63.58	12.90	0.6134
35	2350	4.05	65.45	13.11	0.3475
36	2368	4.05	59.40	14.09	0.3390
37	2388	7.32	63.41	13.64	0.6332
38	2338	4.19	68.47	15.17	0.4353
39	2329	7.53	66.14	13.46	0.6702
40	2349	4.14	71.76	14.31	0.4252
41	2318	4.31	58.11	14.09	0.3530
42	2304	7.44	60.74	14.03	0.6339

43	2358	6.82	70.47	13.75	0.6609
44	2336	4.3	66.39	12.56	0.3586
45	2315	4.4	58.66	13.60	0.3511
46	2372	4.21	59.66	14.16	0.3557
47	2365	6.97	61.04	15.47	0.6580
48	2364	4.1	58.64	14.03	0.3374
49	2342	3.45	54.55	13.25	0.2494
50	2369	7.05	61.85	14.26	0.6218
51	2390	3.56	53.16	15.88	0.3005
52	2389	6.89	58.29	13.93	0.5595
53	2384	4.25	62.24	13.99	0.3702
54	2346	6.67	56.35	13.61	0.5116
55	2357	7.76	73.04	13.20	0.7481
56	2359	7.2	74.96	13.14	0.7092
57	2319	4.33	60.74	13.27	0.3490
58	2383	4.61	68.06	13.05	0.4094
59	2376	4.21	58.80	14.80	0.3663
60	2353	4.08	59.72	14.03	0.3419
61	2305	4.32	63.23	12.87	0.3516
62	2387	4.03	59.17	14.08	0.3357
63	2343	3.98	68.70	13.61	0.3721
64	2321	7.47	69.43	14.11	0.7321
65	2373	7.31	57.89	13.61	0.5760
66	2310	3.9	57.38	13.19	0.2952
67	2360	6.82	66.45	12.81	0.5804
68	2309	4.41	64.35	13.30	0.3775
69	2323	7.44	61.62	13.89	0.6369
70	2352	3.8	58.52	13.76	0.3059
71	2375	4.06	63.08	12.52	0.3207
72	2377	4.37	62.54	13.34	0.3645
73	2362	3.43	56.51	12.53	0.2428
74	2330	3.69	72.09	12.90	0.3432
75	2382	4.16	63.23	14.08	0.3702
76	2326	4.12	66.74	12.36	0.3399
77	2337	7.01	63.26	12.44	0.5517
78	2322	7.35	65.58	14.26	0.6872
79	2345	8.35	68.32	12.73	0.7265
80	2340	7.19	62.03	12.62	0.5630
81	2379	3.14	52.87	14.92	0.2477
82	2334	3.93	60.34	13.31	0.3156
83	2314	6.91	54.23	13.77	0.5162
84	2331	7.29	67.03	13.11	0.6408
85	2399	8.04	55.59	16.80	0.7509
86	2348	4.2	59.59	13.44	0.3364
87	2341	4.06	64.44	8.64	0.2261
88	2397	4.1	61.73	13.51	0.3419
89	2306	7.15	58.92	13.24	0.5577

90	2378	7.39	58.30	13.34	0.5749
91	2333	7.58	68.10	12.58	0.6496
92	2394	3.78	63.05	13.40	0.3194
93	2363	4.52	54.96	14.54	0.3611
94	2320	4.39	59.35	12.97	0.3380
95	2396	4.06	59.03	12.59	0.3017
96	2317	4.42	59.94	12.76	0.3381
97	2344	4.16	60.88	12.06	0.3053
98	2335	4.22	63.14	12.01	0.3199
99	2328	4.41	68.35	13.11	0.3951
100	2347	1.7	60.39	13.21	0.1357

Date: 19.07.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Pratapgarh-I****Challan No. : 22/331**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	2148	7.32	60.01	13.10	0.5754
2	2188	7.24	45.44	16.75	0.5510
3	2172	4.3	62.05	12.97	0.3462
4	2146	7.14	53.09	14.77	0.5598
5	2116	7.61	55.81	14.89	0.6324
6	2168	4.27	55.68	13.27	0.3156
7	2151	7.19	57.24	13.61	0.5601
8	2169	4.15	54.25	13.46	0.3030
9	2163	4.09	60.36	14.20	0.3505
10	2149	7.33	58.33	13.56	0.5798
11	2135	3.83	50.15	15.65	0.3007
12	2178	4.4	63.69	14.55	0.4079
13	2184	7.62	53.47	15.45	0.6294
14	2138	4.29	50.35	15.61	0.3372
15	2180	7.51	67.85	12.17	0.6203
16	2131	4.5	65.60	13.13	0.3874
17	2160	3.51	60.23	12.24	0.2587
18	2193	4.35	62.78	12.89	0.3519
19	2108	4.51	68.47	13.73	0.4239
20	2103	4.2	58.45	14.99	0.3679
21	2177	4.37	64.22	13.58	0.3811
22	2196	4.74	61.34	15.23	0.4427
23	2147	4.27	59.84	14.22	0.3634
24	2136	3.89	46.39	16.21	0.2925
25	2115	4.43	47.47	16.05	0.3376
26	2143	4.08	60.78	14.89	0.3692
27	2161	4.26	62.29	13.53	0.3591
28	2132	7.69	54.30	15.69	0.6552
29	2197	8.09	53.27	16.59	0.7152
30	2145	7.6	56.96	13.40	0.5799
31	2164	7.29	55.55	14.98	0.6065
32	2165	4.44	59.90	13.64	0.3627
33	2195	6.96	55.08	11.49	0.4406
34	2118	4.55	50.36	14.89	0.3413
35	2133	7.51	54.40	12.61	0.5152
36	2124	7.16	50.47	15.53	0.5613
37	2171	7.11	63.09	13.88	0.6228
38	2144	4.25	52.90	13.04	0.2933
39	2123	7.36	46.64	16.12	0.5535
40	2140	4.45	56.56	14.06	0.3538
41	2176	7.47	58.78	13.88	0.6096
42	2179	7.17	58.84	14.45	0.6095

43	2198	4.13	43.83	15.97	0.2891
44	2129	4.64	61.25	13.84	0.3935
45	2182	4.03	55.33	12.94	0.2885
46	2102	7.49	61.97	13.36	0.6202
47	2104	4.23	57.60	13.35	0.3253
48	2120	4.46	53.32	13.82	0.3287
49	2191	7.68	58.24	14.39	0.6436
50	2155	4.06	64.99	14.46	0.3816
51	2101	4.41	61.55	12.79	0.3471
52	2128	7.38	62.97	13.88	0.6450
53	2119	4.33	50.45	14.87	0.3248
54	2174	7.33	66.72	12.13	0.5930
55	2190	4.14	55.63	14.65	0.3374
56	2153	6.9	54.10	14.01	0.5230
57	2122	7.75	48.49	16.56	0.6223
58	2181	4.44	56.41	15.62	0.3912
59	2186	4.13	62.50	14.27	0.3684
60	2183	4.32	53.04	15.95	0.3655
61	2166	4.19	57.14	14.11	0.3377
62	2117	4.3	59.44	16.59	0.4240
63	2167	7.26	56.88	14.98	0.6186
64	2110	6.92	43.20	15.69	0.4692
65	2156	6.95	63.89	13.44	0.5970
66	2199	3.58	49.96	13.17	0.2356
67	2142	4.05	61.71	12.72	0.3179
68	2105	7.32	52.48	14.73	0.5658
69	2141	7.19	58.12	12.25	0.5119
70	2189	3.57	47.83	13.65	0.2331
71	2200	8.89	49.12	13.48	0.5885
72	2159	1.75	50.70	13.81	0.1225
73	2114	7.2	50.68	13.30	0.4853
74	2130	4.41	65.01	13.06	0.3744
75	2157	7.2	64.70	11.89	0.5537
76	2154	7.22	60.29	13.80	0.6007
77	2150	3.86	60.86	12.24	0.2876
78	2112	7.19	47.44	14.12	0.4817
79	2107	7.44	68.37	13.13	0.6681
80	2185	4.48	63.53	13.24	0.3768
81	2113	9.16	45.31	16.64	0.6907
82	2121	9.26	48.13	16.39	0.7306
83	2111	9.05	44.29	16.71	0.6697
84	2109	8.59	68.08	14.19	0.8298
85	2194	6.52	53.83	14.82	0.5203
86	2134	4.6	48.22	14.10	0.3128
87	2106	4.15	61.20	13.71	0.3482
88	2152	7.33	60.53	12.61	0.5593
89	2175	6.91	63.66	12.82	0.5639

90	2139	4.59	47.33	12.78	0.2777
91	2162	4.38	65.80	11.16	0.3215
92	2192	7.53	49.62	14.09	0.5263
93	2125	4.72	54.78	14.20	0.3672
94	2173	4.03	56.19	12.48	0.2825
95	2137	4.27	49.02	14.30	0.2993
96	2170	7.5	65.78	12.22	0.6030
97	2187	3.82	52.05	14.95	0.2972
98	2158	7.28	51.95	13.69	0.5176
99	2126	4.34	52.07	14.48	0.3272
100	2127	4.76	52.92	14.00	0.3527

Date: 18.07.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Pratapgarh-I****Challan No. : 07/140**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	686	8.43	61.45	13.85	0.7174
2	680	7.26	56.43	14.39	0.5895
3	659	8.8	55.48	13.70	0.6688
4	610	4.3	60.91	13.10	0.3431
5	667	7.63	58.63	13.30	0.5951
6	670	4.26	58.93	13.17	0.3306
7	699	6.95	57.34	13.06	0.5206
8	630	7.59	53.98	13.93	0.5708
9	632	7.34	47.32	15.26	0.5299
10	621	6.96	61.02	13.62	0.5784
11	604	8.59	64.72	15.25	0.8478
12	635	7.27	54.89	13.23	0.5278
13	622	7.76	66.16	12.27	0.6301
14	614	7.55	62.12	14.55	0.6825
15	631	8.06	53.18	13.71	0.5876
16	687	8.26	64.29	13.52	0.7178
17	685	7.23	57.47	13.50	0.5610
18	688	7.22	64.85	12.63	0.5913
19	605	8.04	63.38	13.28	0.6770
20	651	4.39	62.81	12.99	0.3582
21	665	6.91	60.58	12.55	0.5252
22	666	6.91	55.70	12.41	0.4775
23	664	4.41	70.59	10.13	0.3153
24	658	4.29	56.54	13.25	0.3213
25	628	4.34	54.13	13.32	0.3129
26	669	4.07	58.21	13.73	0.3252
27	692	4.33	58.14	15.36	0.3867
28	649	4.24	52.84	14.84	0.3324
29	603	4.09	50.42	13.80	0.2847
30	695	4.21	66.31	12.49	0.3486
31	678	7.55	61.76	12.47	0.5814
32	609	4.21	58.46	13.75	0.3385
33	629	4.12	52.73	13.14	0.2855
34	676	7.08	60.86	13.23	0.5699
35	636	7.74	55.36	13.66	0.5851
36	689	7.76	65.12	11.76	0.5944
37	618	8.6	63.48	12.90	0.7043
38	697	7.42	66.82	13.04	0.6463
39	696	8.97	66.75	12.00	0.7185
40	616	4.66	65.97	14.51	0.4460
41	640	6.64	65.57	11.96	0.5206
42	698	8.36	65.53	12.86	0.7047

43	642	7.45	62.46	13.03	0.6064
44	627	7.49	53.37	13.27	0.5303
45	624	4.05	48.33	14.90	0.2916
46	647	7.19	60.26	12.99	0.5630
47	690	7	65.80	12.95	0.5964
48	660	7.23	65.93	12.59	0.6001
49	625	8.9	55.14	12.80	0.6283
50	657	7.63	57.15	13.04	0.5684
51	679	4.36	59.49	12.46	0.3231
52	613	4.17	53.56	13.95	0.3115
53	681	4.32	55.12	13.93	0.3318
54	606	4.48	64.19	13.83	0.3978
55	653	4.54	56.55	13.35	0.3428
56	646	4.56	57.09	13.14	0.3420
57	700	4.28	61.87	13.54	0.3587
58	652	7.45	56.33	14.42	0.6049
59	677	6.96	50.91	14.40	0.5102
60	608	4.23	62.39	13.54	0.3574
61	634	4.6	57.42	13.41	0.3542
62	682	7.43	62.36	13.04	0.6041
63	675	4.42	62.93	13.36	0.3717
64	617	3.9	63.09	13.57	0.3338
65	615	4.42	64.55	13.03	0.3717
66	626	7.67	54.36	14.33	0.5975
67	641	4.34	49.55	13.48	0.2899
68	663	7.45	60.87	13.13	0.5953
69	644	4.05	63.36	12.93	0.3317
70	648	8.81	59.59	13.93	0.7312
71	655	6.71	63.72	13.79	0.5898
72	602	7.16	58.17	14.23	0.5928
73	683	7.31	57.48	14.47	0.6082
74	671	6.83	60.52	12.97	0.5362
75	612	4.04	59.14	14.76	0.3527
76	694	8.79	56.78	15.11	0.7542
77	668	7.41	60.31	13.83	0.6180
78	674	7.1	59.06	13.85	0.5808
79	645	8.54	54.48	14.28	0.6644
80	638	4.4	59.35	14.02	0.3661
81	639	6.55	63.15	12.89	0.5332
82	684	4.26	62.24	14.25	0.3779
83	620	7.39	58.93	13.71	0.5971
84	623	7.2	47.83	15.20	0.5234
85	601	7.19	58.34	14.04	0.5889
86	662	8.48	64.70	13.03	0.7149
87	672	4.44	65.00	12.26	0.3539
88	611	4.34	62.05	13.62	0.3667
89	637	9.27	57.56	13.00	0.6934

90	673	6.92	46.93	12.49	0.4055
91	654	9.09	61.89	12.91	0.7263
92	656	4.41	58.81	13.76	0.3568
93	661	4.04	63.52	13.79	0.3539
94	607	7.23	58.47	13.70	0.5791
95	633	7.71	52.04	13.82	0.5543
96	643	4.16	58.40	13.78	0.3349
97	650	6.99	55.92	13.27	0.5187
98	619	7.06	67.00	13.61	0.6439
99	691	7.53	62.06	13.21	0.6175
100	693	7.19	66.61	13.96	0.6687

Name of Division : Pratapgarh-I

Challan No. : 20/288

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	1988	7.01	66.40	13.84	0.6442
2	1957	4.2	58.97	14.31	0.3545
3	1915	6.98	63.95	13.01	0.5807
4	1977	4.26	59.91	13.20	0.3370
5	1944	7.27	60.28	13.19	0.5780
6	1918	7.58	51.24	9.82	0.3813
7	1906	4.35	63.89	11.60	0.3223
8	1913	3.65	59.74	13.02	0.2840
9	1953	7.24	64.58	13.08	0.6118
10	1979	4.3	66.78	12.32	0.3539
11	1919	3.88	50.38	13.54	0.2646
12	1937	9.01	59.53	13.79	0.7397
13	1960	4.56	50.18	14.79	0.3384
14	1929	3.96	52.04	13.87	0.2859
15	1952	8.86	59.33	14.43	0.7584
16	1956	6.81	61.44	13.80	0.5775
17	1955	3.78	69.31	10.26	0.2688
18	1927	4.76	53.78	13.57	0.3475
19	1907	4.74	65.18	12.89	0.3982
20	1938	6.99	54.96	11.19	0.4299
21	1933	4.21	56.55	12.15	0.2892
22	1970	4.28	60.91	13.18	0.3437
23	1971	6.83	61.26	12.98	0.5430
24	1964	3.99	68.40	13.16	0.3591
25	1939	7.33	59.37	12.67	0.5512
26	1916	3.68	64.87	14.68	0.3503
27	1998	7.57	62.88	13.93	0.6631
28	1936	4.51	58.87	12.30	0.3265
29	1928	7.84	48.75	13.13	0.5018
30	1961	7.02	56.77	14.83	0.5911
31	1968	4.03	59.79	13.43	0.3236
32	1943	7.52	59.37	13.56	0.6054
33	1999	3.87	61.11	13.25	0.3135

34	1945	3.61	60.32	12.73	0.2772
35	1996	6.9	55.61	15.43	0.5920
36	1920	4.45	46.23	13.89	0.2857
37	1954	4.5	66.23	13.08	0.3897
38	1905	7.06	64.17	11.24	0.5090
39	1963	7.32	61.65	12.46	0.5622
40	1931	7.74	56.95	12.20	0.5379
41	1966	4.12	63.82	14.31	0.3762
42	1978	4.41	62.29	12.43	0.3413
43	1932	4.35	60.42	12.99	0.3415
44	1910	3.67	50.11	13.79	0.2536
45	1958	4.06	60.38	15.22	0.3731
46	1923	4.64	53.38	13.09	0.3243
47	1942	4.53	61.65	12.55	0.3506
48	1925	3.6	59.00	12.93	0.2747
49	1951	4.28	69.87	12.55	0.3754
50	1941	3.75	57.08	14.02	0.3000
51	1902	4.16	59.17	13.23	0.3257
52	1985	7.33	64.19	13.88	0.6531
53	1974	7.23	59.09	14.42	0.6160
54	1912	7.23	57.30	11.64	0.4822
55	1967	4.25	59.22	13.32	0.3353
56	1980	4.27	56.96	12.85	0.3126
57	1976	4.12	56.51	13.02	0.3032
58	1995	4.15	58.46	13.91	0.3374
59	1969	3.75	64.39	13.51	0.3262
60	1975	7.3	54.31	14.36	0.5694
61	1930	7.13	51.31	13.25	0.4848
62	1986	4.16	64.94	14.31	0.3865
63	1997	7.25	58.83	13.80	0.5887
64	1946	4.46	56.41	12.78	0.3216
65	1983	4.05	59.28	15.18	0.3645
66	1973	4.09	61.03	14.50	0.3620
67	1948	4.1	53.78	14.19	0.3128
68	1950	4.47	58.00	12.34	0.3201
69	1947	4.55	51.53	13.84	0.3244
70	1903	6.84	63.69	12.66	0.5513
71	1959	4.29	58.11	15.56	0.3878
72	1940	6.97	61.62	12.77	0.5485
73	1909	3.64	57.42	14.18	0.2963
74	1904	3.63	59.11	13.60	0.2919
75	1989	4.02	52.37	15.20	0.3200
76	1908	4.11	65.31	14.30	0.3839
77	1982	4.52	63.08	13.93	0.3973
78	1917	3.76	54.49	14.17	0.2903
79	1990	6.6	54.73	15.84	0.5722
80	1965	4.24	62.04	14.07	0.3702

81	1987	6.03	61.17	14.40	0.5312
82	1926	4.18	59.23	13.10	0.3244
83	1924	4.67	57.65	13.01	0.3503
84	1991	3.94	62.03	13.54	0.3310
85	1934	3.8	61.86	12.63	0.2968
86	1972	7.62	59.42	12.50	0.5662
87	2000	4.24	66.35	11.82	0.3324
88	1993	7.18	60.53	11.73	0.5098
89	1935	3.37	58.90	13.04	0.2588
90	1984	7.84	67.74	12.77	0.6782
91	1981	4.28	69.45	13.38	0.3976
92	1949	4.23	57.18	12.75	0.3084
93	1922	8.65	52.14	13.33	0.6012
94	1911	6.87	59.95	13.74	0.5661
95	1914	8.34	61.42	13.97	0.7156
96	1921	7.49	50.03	13.97	0.5236
97	1992	7	56.33	15.04	0.5929
98	1994	7.38	52.82	14.24	0.5550
99	1901	3.42	54.14	14.06	0.2603
100	1962	7.29	53.07	14.62	0.5657

Date: 14.07.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जाँच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Pratapgarh-I****Challan No. : 18/286**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	1785	7.3	66.71	13.88	0.6760
2	1759	7.65	59.56	14.91	0.6793
3	1797	7.44	59.90	14.21	0.6331
4	1702	3.81	57.29	14.98	0.3269
5	1701	4.38	63.55	14.56	0.4052
6	1732	4.3	58.05	14.23	0.3552
7	1719	5.98	52.15	15.88	0.4951
8	1762	7.21	63.43	14.93	0.6828
9	1744	4.33	65.02	14.21	0.4001
10	1707	6.55	50.97	15.15	0.5057
11	1715	4.23	64.34	14.75	0.4014
12	1789	4.16	59.34	11.09	0.2737
13	1761	3.78	64.13	14.36	0.3481
14	1738	3.81	51.16	15.75	0.3071
15	1705	6.95	53.54	14.10	0.5247
16	1745	6.82	54.60	15.46	0.5756
17	1792	7.34	57.64	13.53	0.5725
18	1714	4.18	54.06	14.41	0.3256
19	1724	3.4	51.42	13.94	0.2438
20	1730	8.61	54.83	13.15	0.6208
21	1708	7.37	63.98	15.05	0.7097
22	1733	3.61	63.59	13.32	0.3058
23	1706	4.32	56.06	14.79	0.3581
24	1765	4.43	43.39	14.63	0.2813
25	1741	3.99	63.32	14.21	0.3591
26	1772	4.38	57.08	13.35	0.3338
27	1737	3.74	58.56	13.68	0.2996
28	1721	4.27	67.24	15.47	0.4441
29	1749	3.68	58.24	15.80	0.3386
30	1757	7.63	55.48	13.37	0.5661
31	1795	4.56	63.62	11.33	0.3288
32	1776	4.18	50.21	14.26	0.2993
33	1768	7.07	58.77	15.74	0.6540
34	1775	7.36	54.27	15.57	0.6219
35	1718	4.26	58.37	15.73	0.3911
36	1748	7.07	51.89	14.30	0.5246
37	1753	7.1	50.18	14.73	0.5247
38	1709	4.38	55.92	14.97	0.3666
39	1735	4.34	63.33	10.85	0.2982
40	1782	4.33	53.31	14.69	0.3390
41	1731	7.13	59.43	14.76	0.6253
42	1742	3.79	60.54	14.27	0.3275

43	1790	4.25	53.66	16.51	0.3765
44	1743	4.21	57.44	12.05	0.2913
45	1751	6.85	62.65	14.92	0.6405
46	1734	3.24	58.15	14.84	0.2796
47	1704	8.01	50.28	15.37	0.6192
48	1756	4.17	51.81	15.44	0.3336
49	1793	4.09	55.40	14.64	0.3317
50	1729	3.63	57.09	14.19	0.2940
51	1752	7.03	51.27	13.98	0.5041
52	1716	3.8	54.32	15.45	0.3188
53	1777	7.24	57.56	13.83	0.5763
54	1770	4.13	59.90	14.39	0.3560
55	1736	4.34	60.78	14.26	0.3763
56	1767	4.14	58.35	14.19	0.3428
57	1760	7.43	60.10	14.44	0.6449
58	1778	8.66	58.62	13.37	0.6789
59	1796	4.25	66.62	14.05	0.3978
60	1750	7.17	61.16	14.26	0.6252
61	1781	4.67	55.51	13.66	0.3540
62	1746	3.67	55.47	14.24	0.2899
63	1720	4.34	66.87	12.32	0.3576
64	1723	3.56	47.41	17.30	0.2919
65	1727	3.39	56.59	15.80	0.3031
66	1728	9.01	54.62	13.40	0.6595
67	1791	3.48	55.22	15.14	0.2909
68	1713	4.03	45.87	15.54	0.2873
69	1739	8.37	67.15	13.13	0.7382
70	1779	7.27	59.91	14.47	0.6303
71	1786	8.62	59.99	13.64	0.7051
72	1783	8.68	58.16	14.75	0.7447
73	1740	4.28	68.43	12.86	0.3766
74	1798	4.44	59.49	14.09	0.3721
75	1771	7.3	55.92	15.31	0.6249
76	1726	7.25	42.41	17.14	0.5271
77	1758	3.49	57.92	14.69	0.2970
78	1800	7.37	55.48	14.22	0.5815
79	1788	7.31	56.35	15.07	0.6206
80	1711	9.72	61.41	14.33	0.8554
81	1799	4.28	63.66	13.74	0.3745
82	1763	4.19	49.05	14.01	0.2879
83	1755	3.37	47.00	15.51	0.2457
84	1769	3.95	47.18	15.24	0.2840
85	1773	4.2	54.97	14.90	0.3440
86	1747	7.12	58.19	15.38	0.6372
87	1794	4.05	50.50	15.45	0.3159
88	1766	3.76	50.61	16.38	0.3117
89	1780	4.38	62.88	15.00	0.4130

90	1774	4.42	52.87	14.07	0.3288
91	1764	4.2	42.95	16.60	0.2995
92	1710	3.92	70.35	13.43	0.3704
93	1703	3.96	54.08	16.01	0.3429
94	1754	4.21	53.83	15.08	0.3419
95	1717	4.25	52.67	16.57	0.3710
96	1722	4.3	50.30	14.37	0.3109
97	1784	4.3	65.81	13.49	0.3818
98	1725	3.41	49.47	14.53	0.2452
99	1712	4.31	59.24	13.71	0.3500
100	1787	4.52	58.38	12.88	0.3399

Date: 13.07.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Pratapgarh-I****Challan No. : 09/142**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	865	4.36	64.38	12.75	0.3580
2	891	7.34	59.32	13.23	0.5762
3	870	7.14	47.10	14.84	0.4991
4	860	7.19	59.35	12.59	0.5371
5	832	7.43	64.81	13.01	0.6263
6	829	6.81	64.50	14.00	0.6149
7	826	4.08	60.76	14.81	0.3672
8	900	4.42	64.94	12.64	0.3629
9	866	7.1	67.48	13.87	0.6646
10	806	4.15	58.21	14.98	0.3619
11	833	8.58	57.42	12.97	0.6392
12	845	9.12	66.35	12.65	0.7652
13	899	8.61	59.68	14.02	0.7207
14	830	9.16	50.16	14.95	0.6870
15	825	8.09	58.01	16.58	0.7783
16	863	8.64	66.05	13.52	0.7716
17	813	8.6	58.69	14.69	0.7413
18	882	7.07	59.09	15.54	0.6490
19	856	4.23	57.07	14.79	0.3570
20	812	4.09	59.25	15.85	0.3841
21	834	4.66	57.11	13.92	0.3705
22	850	4.25	50.35	15.83	0.3387
23	816	4.13	59.03	15.65	0.3816
24	893	4.59	55.02	15.03	0.3796
25	824	4.19	68.25	13.45	0.3846
26	805	3.25	52.22	16.93	0.2873
27	827	4.35	47.51	16.90	0.3493
28	810	6.55	62.19	14.76	0.6013
29	875	4.28	58.97	13.31	0.3360
30	831	7.31	60.84	13.64	0.6067
31	842	4.4	68.49	12.37	0.3727
32	835	7.55	58.42	13.76	0.6070
33	802	4.47	54.89	15.54	0.3813
34	841	4.3	64.46	13.92	0.3857
35	837	7.44	62.08	13.77	0.6361
36	846	7.41	56.69	14.75	0.6195
37	890	4.4	56.79	14.58	0.3643
38	871	4.52	63.91	13.88	0.4009
39	873	7.1	66.48	13.33	0.6291
40	803	8.28	56.49	15.61	0.7303
41	822	8.24	68.64	14.00	0.7919
42	821	8.37	62.48	15.09	0.7893

43	809	8.51	60.50	14.78	0.7608
44	844	8.39	66.55	13.33	0.7442
45	808	8.61	54.53	15.42	0.7241
46	848	4.32	64.63	13.72	0.3832
47	892	4.45	58.72	15.46	0.4041
48	807	7.42	64.47	16.01	0.7657
49	811	6.95	58.50	15.76	0.6408
50	874	8.41	60.31	12.15	0.6165
51	838	7.41	63.17	13.82	0.6469
52	854	7.02	56.04	15.52	0.6107
53	840	8.45	59.93	14.22	0.7199
54	823	7.33	62.53	15.64	0.7169
55	855	7.27	58.24	14.13	0.5983
56	814	4.25	53.63	16.56	0.3774
57	857	3.78	55.66	15.65	0.3292
58	804	8.35	53.74	16.21	0.7273
59	876	4.24	57.82	14.16	0.3473
60	883	6.94	61.61	14.90	0.6371
61	839	3.69	71.33	14.58	0.3838
62	880	8.37	61.59	14.52	0.7483
63	869	8.93	53.38	15.90	0.7582
64	847	4.39	61.88	14.27	0.3876
65	887	6.74	57.40	12.44	0.4812
66	886	7.33	60.57	7.76	0.3445
67	898	7.28	61.06	8.78	0.3902
68	853	7.17	52.07	11.71	0.4374
69	872	3.65	60.27	9.94	0.2186
70	894	7.06	62.22	10.91	0.4794
71	815	4.49	59.44	10.35	0.2761
72	864	7.11	64.17	11.10	0.5062
73	828	4.07	59.17	10.50	0.2527
74	888	4.21	50.89	13.17	0.2821
75	836	6.69	50.70	14.08	0.4777
76	851	7.13	58.16	12.26	0.5084
77	843	3.8	67.39	9.94	0.2546
78	801	7.14	54.00	12.56	0.4841
79	820	6.88	58.81	11.90	0.4816
80	867	7.11	61.79	12.48	0.5482
81	858	4.36	50.89	15.50	0.3440
82	885	4.24	59.27	14.41	0.3621
83	877	7.25	57.02	14.21	0.5872
84	849	4.18	49.24	15.76	0.3244
85	878	7.34	52.21	14.82	0.5681
86	897	4.28	65.22	12.74	0.3557
87	859	7.17	59.77	11.85	0.5076
88	889	4.36	44.32	16.79	0.3244
89	868	3.72	67.84	12.41	0.3132

90	881	4.1	60.09	14.69	0.3620
91	879	4.19	60.35	14.75	0.3729
92	852	4.33	45.97	15.77	0.3139
93	884	3.7	62.67	12.89	0.2990
94	861	3.96	55.75	14.44	0.3188
95	862	7.24	58.72	14.75	0.6270
96	819	7.17	59.24	16.34	0.6941
97	817	4.19	54.18	15.10	0.3427
98	818	7.44	57.19	13.95	0.5937
99	896	4.43	54.26	15.28	0.3672
100	895	7.48	59.02	15.96	0.7046

Date: 12.07.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Pratapgarh-I****Challan No. : 04/49**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	326	8.93	50.87	16.12	0.7323
2	352	7.38	59.72	13.81	0.6089
3	311	7.35	55.52	14.97	0.6108
4	362	7.37	58.81	12.55	0.5439
5	340	7.43	57.64	14.89	0.6375
6	354	9.04	66.69	14.57	0.8787
7	353	8.61	57.03	14.90	0.7318
8	391	8.93	55.10	14.90	0.7332
9	400	9.1	60.00	14.62	0.7981
10	361	7.23	45.39	17.65	0.5791
11	373	7.34	59.30	15.46	0.6731
12	357	7.36	62.26	12.82	0.5873
13	333	7.56	55.28	16.10	0.6728
14	308	7.39	56.77	14.99	0.6289
15	343	9.02	61.54	15.03	0.8344
16	322	7.26	51.88	14.03	0.5285
17	393	9.16	59.80	12.88	0.7053
18	327	8.93	63.39	12.45	0.7046
19	306	7.52	49.94	12.31	0.4625
20	330	7.49	54.18	13.34	0.5415
21	372	7.17	65.26	12.93	0.6051
22	355	9.11	62.33	15.64	0.8882
23	376	4.24	65.34	13.50	0.3740
24	385	4.49	66.45	11.72	0.3498
25	360	4.45	56.55	12.25	0.3084
26	397	7.3	57.53	14.18	0.5957
27	390	8.85	56.35	13.90	0.6930
28	347	8.94	61.06	12.45	0.6794
29	324	7.16	46.12	14.42	0.4761
30	388	6.95	47.61	14.89	0.4928
31	383	4.34	69.24	12.12	0.3641
32	321	4.13	68.11	11.76	0.3308
33	345	4.33	58.49	13.10	0.3317
34	342	4.67	58.69	12.17	0.3334
35	363	7.09	54.58	12.79	0.4949
36	359	7.31	64.90	13.68	0.6491
37	394	7.47	59.89	12.36	0.5528
38	323	3.98	64.55	10.75	0.2762
39	337	7.24	56.38	13.98	0.5705
40	368	7.51	60.38	12.34	0.5595
41	303	3.63	67.94	13.32	0.3285
42	319	3.47	54.35	14.11	0.2661

43	304	3.46	54.55	14.63	0.2761
44	364	4.39	54.29	13.74	0.3275
45	302	3.52	59.50	13.75	0.2879
46	349	7.23	61.43	13.97	0.6203
47	315	6.91	57.19	15.06	0.5950
48	346	8.84	63.89	13.71	0.7744
49	358	9.1	64.76	14.45	0.8518
50	313	7.26	57.18	14.11	0.5859
51	386	8.97	56.33	14.84	0.7499
52	392	7.28	52.59	14.00	0.5358
53	348	9.12	61.51	14.47	0.8117
54	312	7.39	62.04	14.10	0.6466
55	356	7.59	58.42	14.77	0.6550
56	396	8.88	62.66	14.01	0.7797
57	331	8.49	51.39	15.82	0.6902
58	395	7.52	61.61	15.08	0.6986
59	398	8.88	60.85	14.38	0.7770
60	374	7.38	61.82	15.63	0.7129
61	310	8.51	56.22	15.21	0.7276
62	341	8.89	65.49	13.99	0.8143
63	375	7.22	57.07	15.58	0.6419
64	328	7.46	48.65	16.44	0.5968
65	314	8.61	60.70	14.48	0.7568
66	389	8.68	56.61	13.88	0.6822
67	316	7.19	66.26	14.58	0.6946
68	350	7.3	62.73	13.73	0.6285
69	387	4.35	72.88	12.84	0.4072
70	309	3.99	61.74	14.09	0.3471
71	305	7.45	61.92	12.86	0.5930
72	399	8.43	58.27	14.19	0.6972
73	366	9.14	59.23	14.33	0.7760
74	371	8.86	58.20	13.66	0.7044
75	335	7.48	52.43	13.81	0.5416
76	369	7.45	59.40	15.39	0.6809
77	344	9	57.52	14.62	0.7569
78	367	8.66	52.60	14.75	0.6720
79	325	7.6	53.52	14.70	0.5981
80	351	7.26	64.82	13.90	0.6541
81	338	4.14	55.08	14.56	0.3320
82	320	4.05	56.81	13.29	0.3058
83	378	4.66	62.50	14.40	0.4194
84	377	4.37	60.00	13.45	0.3527
85	379	4.48	60.63	14.28	0.3880
86	329	4.57	58.57	14.03	0.3757
87	370	4.42	64.52	13.03	0.3717
88	380	4.29	62.12	14.50	0.3865
89	381	4.66	67.52	12.04	0.3789

90	332	4.31	57.33	16.15	0.3991
91	336	7.08	62.20	15.59	0.6868
92	318	6.83	52.63	15.64	0.5621
93	365	7.51	59.66	14.20	0.6361
94	339	7.43	54.85	13.95	0.5684
95	334	8.13	57.29	14.59	0.6797
96	317	3.4	58.49	14.05	0.2795
97	307	4.41	55.99	15.23	0.3762
98	384	4.64	65.92	12.91	0.3949
99	301	3.69	57.52	15.66	0.3325
100	382	4.22	67.84	13.80	0.3950

Date: 06.07.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Pratapgarh-I****Challan No. : 10/167**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	937	7.1	58.79	14.34	0.5985
2	914	7.23	62.87	14.68	0.6673
3	968	7.02	57.94	14.26	0.5799
4	974	4.38	61.53	14.79	0.3986
5	960	4.89	55.34	15.49	0.4191
6	993	7.3	52.81	15.21	0.5862
7	957	7.35	57.08	15.05	0.6314
8	955	7.3	56.94	16.12	0.6701
9	947	7.25	57.10	14.78	0.6119
10	942	6.32	59.86	14.70	0.5562
11	967	7.11	61.62	15.42	0.6754
12	943	8.32	52.31	16.71	0.7272
13	939	3.6	56.12	16.16	0.3265
14	986	7.53	45.40	16.06	0.5489
15	908	7.3	57.89	14.86	0.6278
16	1000	8.01	51.40	14.44	0.5943
17	982	4.43	68.77	14.66	0.4465
18	926	7.31	49.52	15.15	0.5483
19	962	7.16	63.33	15.40	0.6981
20	919	7.49	62.84	13.64	0.6419
21	976	4.21	71.54	11.97	0.3604
22	907	7.28	61.54	12.37	0.5540
23	973	9	68.68	12.67	0.7830
24	994	9.01	51.15	15.31	0.7055
25	902	4.38	68.40	13.25	0.3968
26	969	3.81	65.87	13.21	0.3315
27	961	8.22	64.41	13.77	0.7291
28	933	8.47	60.52	13.30	0.6818
29	972	4.58	62.67	13.07	0.3751
30	991	8.91	59.94	13.33	0.7119
31	903	4.28	62.40	13.22	0.3531
32	987	7.18	49.42	15.18	0.5385
33	936	2.94	66.51	11.44	0.2237
34	917	9	68.37	12.01	0.7389
35	920	4.33	61.72	13.27	0.3546
36	992	7.37	49.43	14.67	0.5343
37	990	4.47	50.67	15.75	0.3567
38	980	8.71	62.01	13.42	0.7247
39	975	7.22	61.94	13.11	0.5863
40	971	4.35	63.29	11.64	0.3206
41	923	6.95	62.27	14.76	0.6387
42	952	8.55	58.18	14.37	0.7148

43	965	7.41	64.48	12.78	0.6106
44	912	4.67	61.91	12.58	0.3638
45	964	8.99	63.69	13.11	0.7507
46	950	7.47	60.95	13.78	0.6275
47	929	4.38	51.47	14.14	0.3189
48	996	8.67	55.21	15.36	0.7352
49	909	8.75	57.45	14.05	0.7061
50	904	4.61	58.43	14.50	0.3905
51	944	4.41	58.13	15.65	0.4013
52	985	4.78	43.38	14.43	0.2992
53	956	8.26	58.96	14.54	0.7079
54	995	8.63	51.83	14.28	0.6386
55	931	3.54	58.73	13.84	0.2878
56	984	7.54	65.33	14.20	0.6997
57	911	6.93	58.28	14.24	0.5752
58	913	8.56	59.52	14.72	0.7499
59	948	4.69	56.70	14.43	0.3836
60	940	3.54	65.32	14.70	0.3398
61	916	4.35	67.06	14.30	0.4172
62	998	7.66	52.51	15.39	0.6189
63	927	3.4	46.92	15.86	0.2530
64	938	4.17	60.49	14.55	0.3670
65	983	7.38	58.47	15.38	0.6635
66	979	8.63	64.31	13.53	0.7508
67	934	4.22	56.72	13.56	0.3245
68	970	4.41	68.10	12.51	0.3757
69	977	4.14	67.09	12.76	0.3544
70	978	4.47	65.55	12.97	0.3799
71	930	7.64	47.90	14.49	0.5302
72	966	4.31	64.56	13.21	0.3676
73	925	7.23	52.45	14.32	0.5430
74	997	4.55	58.73	12.69	0.3390
75	935	3.74	61.62	13.88	0.3198
76	922	4.23	64.21	13.13	0.3566
77	941	3.68	66.61	13.39	0.3283
78	928	6.45	49.81	14.60	0.4689
79	945	7.44	54.84	12.65	0.5163
80	921	7.34	68.98	11.58	0.5865
81	946	9.11	55.60	13.96	0.7069
82	951	4.37	60.44	12.48	0.3295
83	953	7.39	60.33	13.81	0.6156
84	989	8.74	52.82	12.15	0.5611
85	918	7.5	67.66	14.43	0.7320
86	958	6.66	57.68	14.77	0.5674
87	959	4.33	50.16	16.93	0.3676
88	915	7.19	70.75	14.04	0.7140
89	924	3.88	41.98	16.94	0.2759

90	981	8.42	62.96	14.31	0.7586
91	963	7.32	64.21	14.36	0.6749
92	988	3.71	48.17	14.26	0.2549
93	905	4.3	61.09	11.82	0.3105
94	954	4.15	66.21	14.05	0.3860
95	949	8.76	62.16	14.43	0.7858
96	999	7.39	47.81	15.39	0.5439
97	910	8.76	61.35	15.29	0.8217
98	901	7.19	59.73	14.70	0.6313
99	906	7.55	59.36	13.83	0.6199
100	932	3.76	49.87	15.58	0.2922

Date: 05.07.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Pratapgarh-I****Challan No. : 33/429**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	3292	3.53	67.49	14.61	0.3481
2	3217	3.54	61.96	14.12	0.3097
3	3296	3.74	53.29	13.10	0.2611
4	3225	3.5	57.34	14.84	0.2978
5	3248	3.46	53.33	15.15	0.2796
6	3214	4.56	65.26	14.71	0.4378
7	3210	4.21	63.24	13.46	0.3583
8	3227	3.36	46.46	13.95	0.2177
9	3240	3.61	61.50	13.79	0.3061
10	3279	3.95	67.49	13.75	0.3666
11	3230	3.65	55.86	12.50	0.2548
12	3278	3.74	63.88	12.60	0.3011
13	3261	3.22	54.16	14.14	0.2467
14	3237	3.87	60.14	13.00	0.3026
15	3272	3.74	55.18	13.85	0.2857
16	3297	3.12	59.20	11.47	0.2118
17	3212	4.26	69.42	9.29	0.2748
18	3207	4.34	58.35	12.05	0.3051
19	3239	3.42	55.89	12.11	0.2315
20	3244	3.38	59.32	13.79	0.2765
21	3203	4.36	52.53	10.83	0.2481
22	3238	3.44	58.33	12.26	0.2460
23	3247	3.47	56.76	11.56	0.2276
24	3211	4.47	58.32	9.52	0.2481
25	3265	3.42	65.03	10.07	0.2240
26	3269	3.72	52.93	13.30	0.2619
27	3294	6.94	69.98	12.70	0.6170
28	3245	3.32	52.99	11.36	0.1999
29	3208	7.17	63.28	9.96	0.4517
30	3259	3.84	58.87	14.20	0.3210
31	3276	7.42	54.87	15.66	0.6374
32	3222	7.05	53.45	13.96	0.5259
33	3234	3.77	58.40	11.88	0.2616
34	3235	3.54	57.46	13.02	0.2648
35	3282	4.15	56.78	14.81	0.3490
36	3286	4.45	60.81	13.85	0.3747
37	3254	7.04	68.14	13.62	0.6533
38	3231	3.68	58.96	12.81	0.2778
39	3258	3.38	45.80	15.02	0.2325
40	3300	3.5	62.29	13.76	0.2999
41	3298	3.45	57.29	14.35	0.2836
42	3285	4.21	70.36	14.50	0.4294

43	3260	6.91	62.35	12.40	0.5341
44	3216	3.81	66.22	11.45	0.2888
45	3202	4.36	69.94	11.84	0.3610
46	3252	3.62	65.27	11.80	0.2787
47	3283	4.1	66.07	12.27	0.3325
48	3290	3.73	66.47	12.61	0.3126
49	3267	4.06	65.84	10.62	0.2838
50	3249	3.58	73.77	11.63	0.3072
51	3243	3.19	52.07	12.33	0.2048
52	3270	4.29	56.03	12.80	0.3076
53	3263	4.34	67.29	13.48	0.3936
54	3295	7.18	68.71	12.39	0.6110
55	3299	3.77	59.84	11.75	0.2650
56	3255	3.45	70.48	13.79	0.3353
57	3213	4.91	67.58	11.88	0.3943
58	3277	4.14	69.30	13.23	0.3796
59	3291	7.1	58.00	13.84	0.5701
60	3281	4.21	64.39	12.91	0.3499
61	3293	3.75	62.88	14.25	0.3360
62	3257	3.27	46.07	14.70	0.2214
63	3219	3.98	64.30	14.00	0.3582
64	3280	4.05	50.53	14.47	0.2961
65	3264	1.58	69.51	15.25	0.1675
66	3246	3.19	62.86	14.14	0.2836
67	3256	3.38	57.09	13.59	0.2623
68	3233	3.88	69.28	13.64	0.3667
69	3251	4.41	61.52	14.01	0.3801
70	3209	2.41	50.73	15.26	0.1865
71	3284	3.47	69.73	11.06	0.2675
72	3201	3.8	53.22	10.90	0.2204
73	3204	4.42	57.55	12.34	0.3138
74	3242	4.19	68.00	12.59	0.3587
75	3268	4.21	49.32	13.99	0.2905
76	3224	4.25	69.05	11.11	0.3260
77	3241	8.44	62.23	10.09	0.5300
78	3253	7.14	65.86	13.01	0.6119
79	3215	3.79	53.39	12.55	0.2539
80	3271	4.03	67.91	13.39	0.3663
81	3273	4.18	61.25	11.84	0.3030
82	3275	4.12	64.15	14.72	0.3889
83	3220	3.76	57.30	12.06	0.2598
84	3288	3.64	56.07	14.18	0.2894
85	3223	3.46	71.26	11.76	0.2899
86	3228	3.46	49.22	14.36	0.2446
87	3232	3.85	63.02	13.73	0.3330
88	3226	3.46	56.73	13.91	0.2730
89	3262	3.48	56.84	13.85	0.2739

90	3218	4.13	52.18	14.76	0.3180
91	3205	4.23	60.64	13.56	0.3477
92	3266	4.2	57.14	13.41	0.3217
93	3287	4.21	60.80	14.01	0.3587
94	3274	4.28	65.41	12.66	0.3544
95	3221	3.53	56.64	13.10	0.2619
96	3236	3.78	59.08	13.47	0.3009
97	3229	4.11	48.94	15.22	0.3062
98	3289	3.97	56.46	14.88	0.3335
99	3250	3.86	47.94	15.96	0.2953
100	3206	4.26	64.88	12.64	0.3493

Date: 01.07.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Pratapgarh-I****Challan No. : 02/14**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	188	7.09	64.02	11.75	0.5332
2	194	7.5	54.96	14.32	0.5902
3	105	7.11	59.10	12.71	0.5340
4	163	9.23	60.92	13.00	0.7310
5	183	7.3	59.03	13.32	0.5738
6	133	8.75	65.77	13.73	0.7901
7	178	8.82	69.36	11.65	0.7127
8	156	7.19	56.39	15.11	0.6126
9	151	7.46	59.89	12.81	0.5722
10	113	7.07	61.42	13.25	0.5755
11	186	8.99	55.80	12.81	0.6428
12	121	8.36	61.32	12.20	0.6253
13	177	8.45	60.32	13.28	0.6768
14	176	7.64	64.10	11.22	0.5493
15	185	8.55	65.39	11.78	0.6584
16	161	3.62	56.43	13.38	0.2733
17	159	3.76	63.66	13.65	0.3267
18	171	4.64	55.48	13.91	0.3582
19	115	4.21	55.82	14.30	0.3360
20	108	7.05	55.21	15.31	0.5957
21	175	4.09	67.46	14.56	0.4016
22	172	7.42	66.54	13.15	0.6493
23	148	4.15	53.95	15.16	0.3395
24	197	9.45	46.40	14.48	0.6350
25	130	7.14	57.51	14.35	0.5890
26	160	7.35	57.07	16.19	0.6791
27	142	6.88	70.51	13.08	0.6343
28	122	7.39	62.25	14.10	0.6488
29	106	8.9	47.25	15.89	0.6684
30	169	9.07	56.20	14.68	0.7483
31	147	7.2	43.65	16.38	0.5148
32	167	9.1	58.99	13.95	0.7489
33	126	6.94	60.60	14.80	0.6225
34	158	4.45	59.09	13.81	0.3631
35	153	4.11	61.46	14.43	0.3646
36	146	4.25	53.91	13.37	0.3064
37	200	4.36	60.42	12.12	0.3192
38	149	8.64	58.18	12.08	0.6074
39	152	7.13	65.63	11.84	0.5540
40	131	3.52	63.89	11.49	0.2584
41	110	6.96	52.50	11.35	0.4148
42	157	7.51	59.50	11.43	0.5107

43	104	8.52	60.19	10.90	0.5589
44	116	8.36	63.66	11.18	0.5952
45	132	6.88	65.42	11.17	0.5029
46	102	7.02	54.45	12.65	0.4837
47	120	6.85	58.81	12.31	0.4959
48	124	7.03	52.46	12.07	0.4450
49	118	6.77	60.56	11.38	0.4665
50	191	7.12	51.94	13.73	0.5077
51	190	8.57	56.24	12.06	0.5810
52	141	7.2	57.68	11.74	0.4874
53	134	8.25	58.70	13.46	0.6518
54	166	7.63	62.76	12.89	0.6173
55	170	7.24	65.86	12.30	0.5864
56	179	9.47	60.05	12.89	0.7330
57	143	6.95	62.78	14.10	0.6151
58	107	7.13	52.20	13.64	0.5077
59	138	7.23	64.52	14.09	0.6572
60	101	6.82	46.87	13.61	0.4351
61	111	8.89	57.01	14.23	0.7210
62	109	8.08	57.59	14.34	0.6674
63	140	7.14	57.62	12.36	0.5084
64	137	6.82	65.22	12.82	0.5702
65	129	7.03	55.37	13.33	0.5188
66	181	7.79	57.75	14.61	0.6575
67	198	6.81	49.78	16.71	0.5666
68	117	7.17	50.42	16.44	0.5944
69	162	8.33	64.58	13.94	0.7497
70	192	9.16	48.71	15.05	0.6714
71	174	8.93	60.27	14.67	0.7894
72	136	4.2	63.42	12.88	0.3431
73	155	4.73	64.29	14.34	0.4361
74	135	3.93	55.97	15.60	0.3431
75	112	3.86	45.40	15.40	0.2698
76	164	8.78	58.56	13.80	0.7094
77	127	6.94	62.16	14.29	0.6163
78	196	7.13	51.03	15.64	0.5690
79	189	7.41	51.79	15.85	0.6084
80	144	7.02	55.25	15.29	0.5932
81	193	4.28	56.78	13.14	0.3193
82	184	4.24	61.79	13.14	0.3443
83	180	4.08	61.94	13.71	0.3464
84	119	4.17	58.93	14.25	0.3503
85	123	3.84	64.87	13.13	0.3272
86	145	4.31	57.73	13.13	0.3267
87	165	4.27	60.52	12.77	0.3301
88	150	7.39	62.39	13.40	0.6178
89	182	4.2	59.94	12.75	0.3209

90	168	4.05	60.90	13.27	0.3272
91	173	4.24	62.43	13.13	0.3477
92	128	8.51	58.27	13.81	0.6851
93	114	4.04	51.34	15.29	0.3171
94	195	4.19	54.15	13.78	0.3126
95	199	3.82	58.49	11.64	0.2601
96	154	4.41	63.34	13.48	0.3766
97	187	6.99	55.59	13.56	0.5270
98	125	8.37	63.11	13.58	0.7173
99	103	8.33	51.83	15.30	0.6606
100	139	7.21	62.12	12.30	0.5508

Name of Division : Pratapgarh-I

Challan No. : 05/50

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	491	9.25	61.35	13.33	0.7566
2	485	9.31	63.06	12.92	0.7588
3	433	7.3	66.49	13.34	0.6475
4	469	7.7	62.90	12.62	0.6114
5	470	8.24	52.64	13.87	0.6015
6	488	8.64	65.90	12.90	0.7344
7	421	8.73	63.22	13.45	0.7420
8	420	8.6	60.26	13.97	0.7241
9	444	6.88	64.56	13.26	0.5889
10	423	8.55	59.46	14.38	0.7310
11	430	8.57	53.34	12.84	0.5870
12	472	8.82	59.22	11.62	0.6068
13	462	9.43	58.30	11.34	0.6233
14	458	9.53	63.83	11.11	0.6757
15	500	6.9	53.24	12.87	0.4727
16	490	8.42	57.63	15.11	0.7334
17	461	8.64	56.25	15.45	0.7508
18	459	7.33	54.41	14.76	0.5886
19	482	8.48	62.90	14.75	0.7869
20	410	7.26	57.82	15.76	0.6614
21	405	6.67	60.53	14.87	0.6003
22	467	8.74	52.39	15.63	0.7158
23	498	7.65	55.87	14.84	0.6342
24	478	7.44	67.22	14.06	0.7031
25	466	7.55	58.16	14.92	0.6553
26	408	8.71	59.27	14.97	0.7726
27	492	8.39	66.07	14.51	0.8046
28	489	8.88	62.16	13.55	0.7477
29	446	7.54	49.92	16.15	0.6077
30	436	8.59	63.58	14.28	0.7800
31	474	7.34	65.12	11.50	0.5498
32	412	8.34	63.64	11.72	0.6222
33	419	8.62	64.26	12.92	0.7155

34	434	9	63.97	12.19	0.7020
35	483	8.46	67.69	11.43	0.6548
36	476	4.31	64.01	12.20	0.3366
37	401	4.31	55.09	12.96	0.3077
38	417	4.28	60.21	12.47	0.3214
39	425	4.62	64.58	12.36	0.3687
40	452	3.87	57.73	12.71	0.2841
41	496	7.49	61.80	9.68	0.4479
42	429	7.03	68.11	10.82	0.5181
43	414	7.4	59.05	11.82	0.5165
44	445	6.86	56.46	13.23	0.5124
45	463	8.84	58.90	12.11	0.6303
46	457	6.83	56.86	13.98	0.5430
47	415	7.53	64.70	12.94	0.6303
48	479	8.96	62.22	12.09	0.6738
49	426	9.08	64.09	11.59	0.6746
50	481	8.92	64.73	12.95	0.7475
51	438	4.28	56.03	14.39	0.3450
52	443	4.24	68.27	12.83	0.3714
53	456	3.75	61.88	11.47	0.2663
54	480	8.63	58.23	13.58	0.6826
55	448	7.66	50.58	15.05	0.5829
56	422	7.12	62.84	12.89	0.5767
57	435	7.03	65.56	13.87	0.6390
58	497	6.83	48.20	16.22	0.5341
59	484	9.61	59.79	13.41	0.7707
60	454	4.51	63.90	12.32	0.3549
61	494	9.33	61.78	13.45	0.7753
62	464	9.5	64.50	12.06	0.7391
63	468	8.44	61.03	14.16	0.7292
64	413	4.15	60.52	13.04	0.3274
65	406	7.32	64.72	13.15	0.6229
66	404	9.3	54.73	14.87	0.7570
67	403	7.31	57.65	14.43	0.6082
68	477	8.71	64.07	13.72	0.7656
69	487	7.57	62.79	13.82	0.6571
70	473	7.25	62.08	13.51	0.6083
71	447	8.19	47.87	18.17	0.7125
72	411	8.98	52.97	16.20	0.7705
73	440	6.74	54.60	15.68	0.5769
74	475	4.57	58.13	15.24	0.4049
75	449	3.53	48.90	15.52	0.2679
76	460	8.39	59.65	14.08	0.7048
77	407	8.89	57.40	15.23	0.7770
78	437	6.75	51.72	15.72	0.5488
79	418	8.77	60.85	14.40	0.7683
80	495	8.94	63.59	13.71	0.7796

81	451	8.62	57.72	14.31	0.7120
82	402	9.34	56.61	14.18	0.7500
83	427	8.92	57.94	14.38	0.7430
84	465	8.98	62.19	13.80	0.7705
85	409	8.98	61.93	14.50	0.8064
86	453	3.81	56.22	13.29	0.2846
87	450	4.34	55.20	15.04	0.3602
88	442	3.66	71.03	12.81	0.3331
89	486	4.39	66.90	12.05	0.3538
90	455	3.54	62.48	12.95	0.2864
91	499	7.05	53.73	15.22	0.5767
92	431	8.47	63.46	12.92	0.6945
93	432	9	62.09	10.79	0.6030
94	471	8.46	61.91	12.79	0.6700
95	493	9.13	62.61	13.32	0.7614
96	424	3.92	53.93	13.07	0.2764
97	428	4.42	64.97	11.84	0.3399
98	441	3.52	63.75	13.55	0.3041
99	439	3.58	59.56	14.17	0.3022
100	416	4.28	65.21	14.18	0.3959

Date: 30.06.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जाँच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Pratapgarh-I****Challan No. : 08/141**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	797	3.62	69.68	10.86	0.2740
2	753	7.64	58.11	12.05	0.5348
3	718	8.38	57.65	12.91	0.6235
4	764	7.45	60.84	14.07	0.6377
5	717	7.17	65.74	12.64	0.5958
6	714	7.28	57.31	13.58	0.5664
7	738	3.52	59.18	13.33	0.2777
8	791	3.33	62.72	11.07	0.2311
9	757	4.02	53.07	13.70	0.2923
10	737	4.4	64.74	12.81	0.3648
11	771	7.5	58.85	12.76	0.5632
12	799	8.37	68.40	13.17	0.7541
13	701	8.69	66.31	12.28	0.7074
14	716	7.37	60.84	13.13	0.5889
15	794	4.08	62.14	12.68	0.3215
16	782	6.59	62.00	12.95	0.5292
17	783	3.74	60.20	14.35	0.3231
18	735	4.31	67.30	13.16	0.3819
19	724	3.66	54.59	14.14	0.2826
20	742	3.41	63.26	11.59	0.2500
21	766	4.41	58.19	13.32	0.3418
22	727	7.17	57.93	13.74	0.5707
23	759	3.56	62.14	13.65	0.3019
24	761	4.74	59.04	13.69	0.3830
25	723	3.47	54.03	14.64	0.2745
26	778	4.34	69.16	12.42	0.3728
27	765	4.53	66.39	11.69	0.3515
28	743	3.45	54.80	13.12	0.2481
29	740	6.8	61.74	14.46	0.6072
30	760	7.27	64.18	13.29	0.6201
31	733	8.07	60.71	14.35	0.7029
32	707	8.3	71.41	12.10	0.7171
33	731	3.46	55.93	15.61	0.3021
34	786	4.28	58.50	11.83	0.2962
35	732	3.44	57.89	12.87	0.2563
36	715	5.57	48.69	15.44	0.4189
37	725	3.46	46.90	16.95	0.2751
38	787	6.97	50.94	14.92	0.5297
39	728	7.27	57.65	15.73	0.6594
40	720	7.03	64.12	13.77	0.6207
41	758	8.32	50.26	14.64	0.6124
42	713	6.29	51.38	15.32	0.4950

43	706	6.09	66.18	14.75	0.5944
44	788	4.24	60.85	13.44	0.3468
45	800	4.34	56.05	15.59	0.3793
46	752	7.5	58.68	14.01	0.6165
47	736	3.4	69.15	13.91	0.3271
48	795	8.59	67.88	13.05	0.7611
49	711	3.66	56.85	15.18	0.3159
50	729	3.42	58.79	14.97	0.3010
51	769	9.29	64.26	13.87	0.8277
52	744	7.47	49.30	15.78	0.5812
53	763	8.74	64.61	14.39	0.8128
54	705	7.34	64.67	13.07	0.6202
55	719	7.3	63.76	13.39	0.6234
56	704	7.26	64.62	13.12	0.6156
57	756	4.17	53.36	15.01	0.3340
58	730	6.94	52.65	13.52	0.4941
59	741	2.94	61.19	13.71	0.2467
60	709	4.45	63.33	13.85	0.3903
61	784	7.25	62.57	14.61	0.6626
62	768	7.36	61.59	14.32	0.6492
63	767	9.23	57.43	13.79	0.7310
64	790	6.89	49.10	13.08	0.4423
65	746	6.78	50.05	15.34	0.5207
66	798	4.25	60.14	8.91	0.2278
67	772	4.25	56.94	9.29	0.2248
68	712	4.19	56.36	15.77	0.3725
69	751	7.42	54.63	14.97	0.6070
70	726	7.19	63.52	13.66	0.6241
71	777	4.48	69.16	11.36	0.3521
72	770	7.59	60.65	14.44	0.6649
73	789	6.86	62.73	12.40	0.5337
74	781	7.37	67.73	10.76	0.5373
75	792	2.26	65.71	11.46	0.1702
76	734	3.47	62.52	14.03	0.3043
77	796	4.05	65.36	12.26	0.3244
78	702	6.81	63.31	12.15	0.5237
79	710	6.77	52.88	13.60	0.4868
80	745	7.58	51.87	14.90	0.5859
81	703	7.14	66.44	14.13	0.6704
82	775	4.36	56.72	13.65	0.3375
83	773	4.29	56.48	14.96	0.3625
84	739	4.32	65.36	14.15	0.3996
85	793	2.57	61.14	12.12	0.1904
86	721	7.12	61.09	13.77	0.5988
87	748	8.98	50.85	15.63	0.7139
88	749	7.17	55.74	15.72	0.6281
89	755	7.34	52.88	16.07	0.6239

90	747	4.28	47.03	15.39	0.3099
91	708	7.29	64.67	14.16	0.6678
92	785	9.02	44.97	13.30	0.5394
93	750	7.57	59.93	14.60	0.6624
94	780	7.05	62.36	14.66	0.6444
95	776	8.81	66.41	14.14	0.8273
96	762	8	63.17	14.17	0.7160
97	779	8.98	62.47	13.61	0.7633
98	774	7.21	55.43	14.18	0.5667
99	754	7.58	50.92	14.57	0.5624
100	722	3.65	48.03	14.20	0.2489

Date: 29.06.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Pratapgarh-I****Challan No. : 11/168**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	1026	9.06	48.30	14.37	0.6288
2	1004	3.69	52.84	13.74	0.2679
3	1079	7.08	51.12	14.91	0.5395
4	1042	7.57	59.62	13.74	0.6200
5	1024	4.84	48.28	14.64	0.3422
6	1094	7.67	66.42	12.42	0.6328
7	1019	7.14	66.61	12.49	0.5940
8	1052	4.04	57.56	13.99	0.3252
9	1070	7.62	65.97	11.11	0.5585
10	1093	8.46	58.86	13.71	0.6827
11	1064	7.2	68.29	13.69	0.6732
12	1013	7.61	60.64	12.99	0.5997
13	1066	7.4	70.27	11.34	0.5898
14	1086	7.73	60.78	12.47	0.5859
15	1056	4.14	63.43	12.64	0.3320
16	1096	4.34	70.43	11.71	0.3581
17	1055	4.39	61.07	12.23	0.3279
18	1083	4.18	61.26	13.70	0.3507
19	1045	4.6	62.32	12.37	0.3547
20	1030	8.44	61.72	12.80	0.6668
21	1036	4.39	56.86	13.07	0.3262
22	1091	7.16	58.97	13.57	0.5728
23	1076	7.38	74.14	11.44	0.6258
24	1078	3.76	50.85	13.77	0.2632
25	1043	9.23	65.06	12.40	0.7449
26	1018	6.96	69.89	14.18	0.6897
27	1015	6.65	52.82	14.18	0.4981
28	1054	7.51	67.29	11.84	0.5985
29	1059	7.17	58.81	13.48	0.5686
30	1005	4.49	56.71	13.14	0.3345
31	1082	8.85	61.83	13.41	0.7337
32	1061	7.12	64.15	12.17	0.5561
33	1017	7.66	59.42	13.51	0.6151
34	1023	8.63	51.34	14.12	0.6257
35	1099	9.02	70.84	11.63	0.7432
36	1039	9.06	55.01	14.03	0.6994
37	1031	3.37	53.76	13.23	0.2396
38	1087	7.24	64.08	13.34	0.6190
39	1077	4.04	44.46	12.24	0.2198
40	1040	4.58	58.91	13.34	0.3600
41	1081	4.42	59.89	11.67	0.3090
42	1032	7.51	49.34	13.62	0.5047

43	1008	4.47	59.95	12.44	0.3335
44	1092	7.61	68.66	13.01	0.6796
45	1001	4.47	58.79	13.45	0.3536
46	1050	4.45	60.12	12.54	0.3355
47	1038	9.65	57.22	13.26	0.7324
48	1010	8.44	62.62	13.02	0.6879
49	1089	4.49	61.05	13.71	0.3758
50	1065	7.33	63.33	12.96	0.6018
51	1067	7.2	61.47	12.61	0.5580
52	1095	8.58	63.70	12.59	0.6881
53	1051	4.64	62.57	12.34	0.3582
54	1063	7.66	57.89	15.32	0.6794
55	1088	7.46	60.50	13.82	0.6237
56	1068	8.09	70.12	13.56	0.7694
57	1009	4.61	50.35	16.52	0.3836
58	1057	7.34	52.89	14.80	0.5747
59	1034	7.62	49.66	15.02	0.5685
60	1028	4.51	53.69	14.04	0.3401
61	1035	3.77	51.90	12.58	0.2462
62	1016	4.35	48.17	16.36	0.3428
63	1033	4.3	44.20	17.90	0.3401
64	1020	4.5	45.45	17.95	0.3672
65	1098	7.52	58.26	15.65	0.6858
66	1027	4.27	41.24	15.98	0.2814
67	1074	7.06	62.04	16.42	0.7194
68	1029	7.27	48.06	16.19	0.5656
69	1037	4.31	44.82	17.22	0.3327
70	1049	4.45	63.90	13.15	0.3738
71	1084	4.33	65.18	14.42	0.4070
72	1069	4.31	66.31	14.58	0.4168
73	1058	4.31	62.63	13.75	0.3711
74	1097	4.29	62.74	13.85	0.3728
75	1075	3.88	73.22	13.70	0.3892
76	1003	4.21	50.20	16.55	0.3499
77	1062	7.2	62.70	14.64	0.6610
78	1012	4.56	60.74	13.96	0.3867
79	1073	4.16	72.06	14.31	0.4289
80	1060	7.14	58.16	15.37	0.6383
81	1048	3.72	67.49	14.49	0.3638
82	1080	8.51	51.71	14.64	0.6442
83	1071	4.07	63.59	13.45	0.3480
84	1053	4.56	56.66	14.90	0.3849
85	1072	7.21	70.02	12.62	0.6374
86	1025	4.63	48.76	13.64	0.3079
87	1046	7.67	60.39	14.41	0.6673
88	1007	3.81	65.46	12.10	0.3018
89	1090	4.38	62.53	11.42	0.3127

90	1014	7	61.72	12.54	0.5418
91	1047	4.64	61.97	12.18	0.3503
92	1100	7.17	68.40	12.70	0.6231
93	1085	4.37	64.40	13.98	0.3933
94	1041	8.43	48.55	14.34	0.5867
95	1044	3.76	65.34	13.94	0.3425
96	1021	7.91	59.27	13.18	0.6178
97	1011	9.06	58.40	13.17	0.6967
98	1022	9.49	49.60	13.91	0.6548
99	1002	4.18	59.78	13.53	0.3382
100	1006	7.8	58.25	13.27	0.6029

Date: 27.06.2022

अस्वीकरण:—

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Pratapgarh-I****Challan No. : 06/139**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	550	9.1	58.44	13.95	0.7417
2	504	4.43	60.77	13.82	0.3721
3	512	7.18	52.73	14.36	0.5435
4	572	3.65	64.30	13.19	0.3095
5	580	7.2	60.32	13.05	0.5666
6	571	4.04	66.09	11.23	0.2998
7	506	3.98	52.61	16.04	0.3359
8	581	7.15	62.09	12.90	0.5727
9	556	3.7	58.69	13.15	0.2856
10	582	7.41	63.66	12.88	0.6076
11	505	6.98	58.64	12.57	0.5144
12	548	2.18	54.52	12.31	0.1463
13	583	7.14	62.51	13.18	0.5883
14	575	4.18	52.18	14.74	0.3214
15	573	7.78	54.68	13.61	0.5788
16	588	6.93	69.06	11.05	0.5288
17	543	4.34	54.54	14.61	0.3459
18	535	7.51	62.19	14.13	0.6601
19	563	3.85	62.59	12.21	0.2941
20	533	6.78	65.68	11.22	0.4997
21	585	7.24	62.17	12.06	0.5430
22	501	4.23	63.16	13.87	0.3705
23	595	6.5	49.15	13.18	0.4212
24	553	3.34	60.07	14.88	0.2986
25	516	7.25	60.55	13.03	0.5720
26	574	8.44	56.12	13.90	0.6583
27	539	4.27	66.25	12.78	0.3617
28	570	3.8	58.93	13.39	0.2998
29	579	8.11	56.87	15.46	0.7129
30	546	3.59	54.48	15.12	0.2958
31	540	4.08	69.63	14.16	0.4023
32	502	4.2	51.36	15.36	0.3314
33	599	4.47	65.23	14.27	0.4162
34	534	4.17	61.64	13.84	0.3557
35	541	3.4	39.52	16.27	0.2186
36	576	7.24	53.40	14.01	0.5416
37	527	4.03	59.59	13.48	0.3236
38	511	6.51	59.44	13.29	0.5143
39	596	4.36	60.52	13.35	0.3523
40	517	7.02	62.19	14.05	0.6135
41	558	3.6	53.22	14.92	0.2858
42	509	2.18	61.91	11.37	0.1535

43	518	4.25	65.17	13.37	0.3702
44	557	3.71	56.22	14.23	0.2968
45	552	3.45	51.57	14.54	0.2587
46	519	7.35	62.83	13.02	0.6012
47	545	3.54	56.45	14.10	0.2818
48	521	6.66	60.25	12.98	0.5208
49	528	4.23	63.99	13.38	0.3621
50	565	4.6	55.29	12.23	0.3110
51	510	3.9	58.91	13.44	0.3089
52	587	7.51	64.81	14.07	0.6849
53	594	8.48	64.46	14.07	0.7691
54	593	8.62	64.93	13.98	0.7827
55	577	4.47	59.07	13.36	0.3527
56	564	7.71	58.88	13.71	0.6222
57	538	4.2	70.70	14.44	0.4288
58	524	4.14	62.57	13.22	0.3424
59	592	7.19	64.35	13.89	0.6428
60	551	3.53	57.70	14.52	0.2958
61	513	4.05	52.54	14.47	0.3078
62	523	4.12	59.64	14.52	0.3568
63	520	3.7	62.24	13.43	0.3093
64	522	7.14	62.91	12.86	0.5776
65	537	4.15	61.36	13.25	0.3374
66	578	7.37	63.79	12.82	0.6029
67	515	4.27	54.20	13.71	0.3173
68	597	8.56	57.73	13.79	0.6814
69	549	3.59	52.30	13.92	0.2614
70	547	4.28	64.02	14.07	0.3856
71	600	7.19	61.46	12.97	0.5730
72	508	4.42	52.38	13.75	0.3182
73	532	7.19	70.65	12.85	0.6529
74	529	4.16	72.29	12.88	0.3873
75	591	8.86	67.23	12.76	0.7602
76	590	7.12	62.90	13.13	0.5881
77	566	4.32	61.26	12.49	0.3305
78	562	3.58	58.46	11.75	0.2459
79	530	6.87	57.41	11.39	0.4493
80	568	3.55	67.32	12.97	0.3099
81	559	7.47	53.43	14.79	0.5901
82	555	3.3	50.13	15.46	0.2558
83	561	9.21	53.92	14.08	0.6990
84	544	4.14	53.95	13.57	0.3030
85	536	6.8	64.49	12.41	0.5440
86	586	7.39	63.50	13.42	0.6296
87	503	4.26	57.36	12.92	0.3157
88	560	3.82	55.71	14.43	0.3071
89	569	7.73	60.60	12.49	0.5852

90	531	4.08	62.49	13.54	0.3452
91	584	3.71	63.28	13.18	0.3094
92	525	7.08	64.19	12.43	0.5650
93	526	6.97	62.88	12.66	0.5548
94	514	4.45	53.08	13.77	0.3253
95	542	3.8	55.20	13.89	0.2915
96	598	6.88	55.08	14.81	0.5614
97	589	4.25	65.61	12.57	0.3506
98	507	8.73	52.18	14.24	0.6486
99	567	3.76	61.57	12.70	0.2940
100	554	7.73	51.49	13.58	0.5403

Date: 24.06.2022

अस्वीकरण:—

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Pratapgarh-I****Challan No. : 13/170**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	1214	8.2	70.97	11.75	0.6839
2	1204	4.18	67.17	13.16	0.3695
3	1294	4.35	71.85	9.78	0.3058
4	1242	4.19	59.87	12.21	0.3063
5	1262	7.41	68.56	13.29	0.6751
6	1256	4.46	67.75	10.94	0.3305
7	1265	4.12	64.56	12.47	0.3317
8	1246	4.25	63.57	13.56	0.3664
9	1231	4.45	66.98	11.75	0.3502
10	1238	7.49	61.33	11.66	0.5355
11	1275	6.95	66.12	14.08	0.6470
12	1281	7.01	64.16	13.29	0.5980
13	1224	4.56	70.50	12.88	0.4140
14	1208	7.4	62.66	11.60	0.5380
15	1259	7.2	60.97	12.94	0.5681
16	1276	4.55	63.92	13.34	0.3881
17	1236	9.33	64.84	13.51	0.8173
18	1220	7.05	68.35	12.06	0.5809
19	1289	4.63	76.82	13.07	0.4649
20	1253	7.51	70.58	11.77	0.6241
21	1292	4.3	69.06	14.32	0.4253
22	1217	7.43	51.29	17.33	0.6605
23	1287	4.8	71.33	14.09	0.4824
24	1202	7.25	59.84	13.59	0.5894
25	1207	7	60.92	13.23	0.5642
26	1263	8.69	66.17	12.03	0.6917
27	1211	4.94	67.65	12.28	0.4105
28	1268	7.24	70.32	13.03	0.6632
29	1288	3.71	66.85	13.18	0.3269
30	1203	7.2	58.89	14.35	0.6084
31	1219	4.34	72.21	12.20	0.3824
32	1226	4.45	71.46	13.59	0.4321
33	1258	4.52	55.98	15.58	0.3941
34	1266	4.87	63.78	14.16	0.4398
35	1245	7.22	64.79	12.64	0.5913
36	1280	4.53	68.72	13.18	0.4104
37	1234	4.43	67.12	12.05	0.3584
38	1213	4.31	66.84	12.70	0.3659
39	1227	7.26	63.31	11.03	0.5067
40	1205	4.73	63.75	13.88	0.4186
41	1285	4.34	66.27	12.86	0.3698
42	1255	4.24	69.45	12.56	0.3697

43	1297	7.5	65.25	12.34	0.6038
44	1278	7.12	66.79	12.67	0.6024
45	1261	4.31	58.71	14.26	0.3607
46	1260	4.34	60.11	13.92	0.3633
47	1222	4.42	63.86	12.12	0.3421
48	1240	3.96	64.18	11.92	0.3029
49	1299	4.15	70.12	12.07	0.3511
50	1237	4.56	64.23	12.38	0.3625
51	1223	7.78	67.23	11.71	0.6123
52	1252	4.31	67.77	11.69	0.3414
53	1291	7.45	69.14	12.89	0.6638
54	1247	4.33	57.68	13.73	0.3429
55	1215	4.51	64.34	11.92	0.3459
56	1225	4.33	65.04	12.36	0.3481
57	1272	7.56	61.28	13.23	0.6131
58	1254	8.86	71.07	11.86	0.7469
59	1209	7.07	66.91	13.32	0.6299
60	1241	7.38	61.75	14.28	0.6509
61	1221	4.32	64.48	13.88	0.3866
62	1239	4.6	63.27	12.83	0.3735
63	1228	4.41	59.84	12.55	0.3312
64	1271	9.02	66.05	11.90	0.7090
65	1286	4.56	71.05	11.47	0.3716
66	1218	8.88	69.68	12.56	0.7770
67	1243	7.25	68.64	12.50	0.6220
68	1267	8.49	60.58	14.91	0.7666
69	1248	7.27	69.77	11.08	0.5620
70	1235	9.02	67.82	13.31	0.8145
71	1244	4.71	59.40	13.27	0.3711
72	1277	7.88	66.15	11.37	0.5926
73	1279	7.51	63.16	12.43	0.5895
74	1250	9.68	61.73	13.38	0.7996
75	1295	7.1	64.29	12.99	0.5928
76	1296	7.35	66.07	11.56	0.5615
77	1249	4.52	68.36	13.47	0.4163
78	1216	4.53	66.48	13.31	0.4009
79	1257	7.07	57.97	13.49	0.5529
80	1269	4.1	71.43	12.84	0.3760
81	1274	4.55	61.74	12.63	0.3549
82	1290	4.21	64.60	13.58	0.3692
83	1284	7.35	66.68	12.93	0.6336
84	1251	4.17	66.25	13.03	0.3599
85	1283	4.61	70.92	11.91	0.3895
86	1229	4.26	63.01	13.06	0.3506
87	1201	8.99	64.82	13.67	0.7965
88	1206	7.43	58.28	10.84	0.4696
89	1230	4.22	65.71	11.19	0.3102

90	1233	7.13	59.43	12.13	0.5141
91	1300	8.71	65.69	13.62	0.7795
92	1293	4.39	66.73	13.35	0.3911
93	1232	7.7	63.49	12.00	0.5867
94	1273	8.31	62.58	13.06	0.6789
95	1264	4.45	66.28	11.68	0.3444
96	1212	4.26	66.84	12.16	0.3463
97	1298	7.19	71.59	10.18	0.5242
98	1270	4.3	64.55	13.21	0.3668
99	1282	3.94	64.09	14.95	0.3775
100	1210	7.2	57.01	13.03	0.5350

Date: 23.06.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।